EKAL PRAYAS

A Family Magazine With Social Concern

July-August, 2026 Vol-17 No. 3

एकल प्रयास

सामाजिक सरोकार की पारिवारिक पत्रिका

Pages 44 50/-

संक्रांति का स्नेह संपर्क

सेवा, समर्पण और कृतज्ञता का पावन पर्व

Wrapped in Love
Possibilities
Infinite
PRISM JEWELLERY
Jitendra Bhansali Group Company
Contact:
Sanket Jain | 98200 98884
sanket@prismjewellery.com
Amar Bhansali | 98200 94440
amar@prismjewellery.com
Pranay Shah | 98200 28461
pranay@prismjewellery.com
Dharam Bhat | 98730 08510
dharam@prismjewellery.com
Raumil Sanghavi | 9833208447
raumil@prismjewellery.com
309 – 311 , A-1, Shah & Nahar Ind. Estate, Sitaram Jadhav Marg, Lower Parel (W),
Mumbai – 400 013, Maharashtra, India. Tel No.+91-22-43484348

EKAL PRAYAS

A Family Magazine With Social Concern

July-August, 2026 Vol-17 No. 3 ₹ 50/-

Editor
Manju Srivastava

Co-Editor
Siddhartha Shankar Gautam

Editorial Board
Nishi Agarwal
Praveen Arya

Editorial Coordinator
Harsh Malik

Area Co-Ordinators

N. Madhavan
(Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Telangana)

Ramesh Limbu - Northeast
(Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Sikkim and Tripura)

Sanjay Malviya
(Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh)

Sheshrao Meshram
(Gujarat, Maharashtra and Rajasthan)

Vijay Kanwar
(Himachal Pradesh, Jammu, Kashmir, Ladakh, Punjab and Uttarakhand)

Art Consultant
Sandeep Kumar

Head Office
Ekal Prayas, 1st Floor, Plot No. 8
Local Shopping Complex, Okhla Phase-II
New Delhi - 110 020.
Phone: 011-4050 3331.
Fax: 011-4050 3332.
E-mail: ekalprayas@ekal.org

Awake, Arise and Achieve

प्रिय पाठक,

'कार्यकर्ता' किसी भी संगठन की प्राण–वायु होते हैं और एकल अभियान के कार्यकर्ता तो रामजी की सेना के सेवक की भांति ग्रामीण जनजाति समाज में शिक्षा, संस्कार, स्वावलंबन, बंधुत्व आदि के भावों का जागरण कर रहे हैं। ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ताओं की जीवटता एवं जिजीविषा को प्रणाम करते हुए एकल अभियान के सहयोगी संगठनों के महिला विभागों द्वारा वर्ष में एक बार 'संक्रांति' उत्सव पर स्नेह संपर्क के माध्यम से उनकी सेवा, समर्पण और कृतज्ञता का पावन पर्व मानते हुए उन्हें उपहार प्रदान किए जाते हैं। यह उपहार इस बात का द्योतक है कि एकल अभियान ममत्व भाव से अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा है।

तीन दिवसीय एकल श्रीहरि राष्ट्रीय समिति समन्वय वार्षिक बैठक में संगठन की यात्रा, उसके स्वरूप एवं भविष्यगत योजनों पर विचार विमर्श हुआ जो निःसंदेह संगठन को मजबूत करेगा। योग ने पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधते हुए इसकी महत्ता को रेखांकित किया है जिसके अंतर्गत एकल अभियान ने भी भारत और विश्व के कई देशों के चैप्टरों में एक माह तक योग प्रशिक्षण का ऑनलाइन आयोजन किया जिसमें करोड़ों नागरिकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित हुई।

एकल विद्यालय फाउन्डेशन अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सुब्रा द्रविड़ ने अपने भावपूर्ण लेख में युवाओं के भीतर सेवा एवं संस्कारों के प्रति समर्पण तथा देश के युवाओं का भविष्य देश के साथ बढ़े, पर अपने विचार व्यक्त किए। बौद्धिक विमर्श के कार्यक्रमों में 'अभिज्ञ 3.0' तथा 'एकल को जानो' ने बौद्धिक जगत में विशेष छाप छोड़ते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज की है। वहीं वनयात्राओं के माध्यम से एकल विद्यालयों एवं एकल ग्रामों में उत्साह का संचार हुआ है तथा नगर–ग्राम की दूरी कम हुई है।

श्रीमती प्राची गर्ग का ध्येयनिष्ठ जीवन संगठन से संस्कारों की यात्रा का साक्षी रहा है। संघ संस्कारों में पली–बढ़ी प्राची कब एकल से एकाकार हो गई, पता ही नहीं चला। कुशल संगठनकर्ता, मातृत्व भाव से भरी और ग्राम संगठन की मजबूत कड़ी प्राची का जीवन अनुकरणीय है। मैंने प्राची की यात्रा को देखा है और यह कह सकती हूँ कि जो संगठन को ही परिवार माने, वह प्राची है।

इसके इतर विभिन्न आयोजनों, कार्यक्रमों आदि ने भी एकल अभियान को सतत जीवंत रखा है। शेष, अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी।

आपकी
मंजु 'दीदी'
manju@ekal.org

C O N T E N T S

09
COVER STORY
संक्रांति का स्नेह संपर्क...
श्रीमती मंजु श्रीवास्तव

1. Ekal Yuva Udaan, USA 15
2. Rashtriya Yuva Sammelan 28
3. Vanyatra 36
4. Standing Tall 39
5. Vanvasi Shourya Gatha 41



05
Ekal's Historic Journey
(Excerpts from Swaraj Ka Shanknaad)

07
जनजातीय समाज...
निरंजन कुमार

22
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
संजय मालवीय

34
Ekal Canada...
Nishi Agarwal

Published and Printed by Manju Srivastava from 1st Floor, Plot No 8, Local Shopping Complex, Okhla Phase-II, New Delhi - 110 020. Owner: Ekal Sansthan Printed at - Viba Press Pvt. Ltd., C - 66/3 Okhla Industrial Area - II, New Delhi - 20. Editor - Manju Srivastava.

All rights reserved. Reproduction in any form with written permission only. All disputes are subject to the jurisdiction of competent Courts in Delhi/New Delhi only.

INOX AIR PRODUCTS

OXYGEN THAT CARES



800+ HOSPITALS SERVED	4+ CR. KM/YEAR TRAVELLED BY THE FLEET	20+ INDUSTRIES SERVED	1800+ CUSTOMERS	6+ DECADES IN BUSINESS

>4700 TPD+ LIQUID MANUFACTURING CAPACITY	1700+ PERMANENT EMPLOYEES	700+ FLEET SIZE	54+ OPERATING LOCATIONS IN 17 STATES

INOX AIR PRODUCTS PRIVATE LIMITED

A-2, TTC Industrial Area, Off Thane Belapur Road, MIDC, Pawane, Navi Mumbai, Thane- 400710

info@inoxap.com www.inoxairproducts.com

Continued...

Self-Dependence in Shreehari Katha Model

The Ekal Abhiyan regards self-dependence as the foundation of self-respect and social empowerment. Through Shreehari Katha, satsang gatherings, village development initiatives, and disciplined volunteer work, Ekal seeks to create a sustainable model of education and social transformation.

Every katha and satsang includes an aarti collection, while special family rituals and community programmes contribute funds for the organisation's activities. Full-time Ekal volunteers play a vital role in this mission. They are encouraged to approach urban families, explain the objectives of Ekal, present its activities, and inspire people to support the movement. The organisation believes that a volunteer develops true self-respect only when he contributes towards the self-reliance of the mission. An inspiring idea from the Upanishads reflects this spirit. A devotee prays to God for the strength to return to society more than what he has received from it. Ekal expects its volunteers to work with the same sense of gratitude and dedication. Volunteers receive only limited support for travel and food, yet they strive to return manifold contributions for the organisation. According to Shyam ji, a true full-time volunteer is one who contributes more than his own expenses. However, volunteers are not permitted to handle funds directly. Their role is to motivate local committees and strengthen community participation.

Ekal committees should be self-dependant - Ekal believes that self-dependence should not remain limited to volunteers alone; every committee and household must share this responsibility. Volunteers are encouraged to contact every family, including women and children, and inspire them to contribute regularly. Since Ekal spends only a small amount daily on each child through education, healthcare, and village development, families are motivated to donate modest sums regularly. Donation boxes placed in homes become a practical means of sustaining the movement.



The Kathakaar Yojana, or preaching programme, was designed as a comprehensive model of self-reliance. It includes organising rituals for family and village welfare, satsang gatherings, devotional storytelling, and support for the preacher's family. Weekly satsangs are conducted in selected homes, while trained kathakaars organise Bhagwat Kathas and festivals to inspire villagers spiritually and socially. Offerings collected during these programmes contribute directly to Ekal's self-dependence fund.

Ekal also promotes the concept of a "Bhagwat Parivaar," through which one family connects neighbouring households for spiritual and social activities. Kathakars are adopted by families as their own children and invited periodically to conduct Bhagwat Kathas. Through these efforts, each preacher can help generate significant annual support for the mission. Each kathakar collects around Rs 20,000-25,000 in a year. Each kathakaris connected to almost 20 satsangs.

Special emphasis is placed on selecting kathakars rooted in village and forest life. Ekal believes that those who have lived among tribal and rural communities can narrate the stories of Lord Ram and Lord Krishna with



greater authenticity and emotional connection. Such grounded and hardworking kathakars are considered more suitable for serving remote villages than highly celebrated urban religious figures. Some of these kathakars are trained in an advance course and sent to perform in metro cities like Delhi, Kolkata, Mumbai etc.

The movement also highlights the deep cultural strength of Indian society. An emotional example is cited of an elderly grandmother willingly encouraging her grandson to dedicate his life to Ekal and the service of society. Such sacrifices, according to Ekal, reflect the enduring spiritual strength of the nation.

Village development schemes have emerged as another major pillar of self-dependence. Ekal promotes bio-fertiliser production using cow dung, cow urine, and earthworms. Full-time workers, teachers, and villagers are trained in these practices so they can generate additional income. A portion of this income contributes to village development funds. Ekal believes that such economic activities can make village schools and dispensaries self-sufficient while also strengthening agriculture and rural livelihoods.

Ekal strongly connects self-dependence with self-respect. A village school supported entirely by outside donations cannot fully awaken confidence among villagers. Therefore, Ekal encourages parents and villagers to take responsibility for sustaining their own schools. The organisation seeks to transform the perception of a school from a mere educational institution into a centre for village development and social awakening.

CORRECTION / CORRIGENDUM

With reference to the article "History of Ekal Vidyalaya Foundation, USA" written by Sri Ramesh Shah and Sri Jyotish Parekh, published in the May–June issue of Ekal Prayas, a factual misinformation has been brought to my attention along with the relevant documents of Ekal USA for checking the facts.

It is possible that both the writers being very senior, they may have missed a few facts that happened two decades ago.

Hence, after fact checking, it has been found that since the beginning, one director on the Board of Ekal Vidyalaya Foundation, USA, representing Ekal Vidyalaya Foundation of India as against overall ten Directors had always been a Voting Director.

At present there are two directors from Ekal India: one from Ekal Abhiyan and one from Ekal Global and both are regular and Voting Directors.

Though the article was published in good faith, the Editor regrets this omission and ensures that the documented history of Ekal remains factually accurate and inclusive, recognizing the contributions of all those who have helped shape the growth of the movement.

Editor, Ekal Prayas

The Ekal school model is unique because it combines children's education with community education. Besides basic literacy, villagers receive guidance on health, development, awareness, and moral values. Weekly satsangs and village assemblies are organised for this purpose. Village committees include dedicated individuals responsible for health, agriculture, awareness, and social coordination. Teachers and volunteers receive special training to guide these activities. It is imperative to understand that these schools are provided with the three types of study material – compulsory, extra and local material. Scholl material includes – nameplate, blackboard, picture of goddess Saraswati and alphabet charts. Teachers' material comprises of teacher's diary, prospectus, attendance register and material for extracurricular activities. Student gets – slate, copy, language and maths book.

To strengthen accountability, the "Gram Swabhiman Dayitva" initiative was introduced in Gujarat. Under this scheme, each full-time worker supervises five village schools and spends regular time in those villages. These volunteers conduct meetings, support teachers, ensure the functioning of village committees, organise satsangs, and motivate villagers to contribute financially towards the school's self-reliance.

Ekal maintains strict financial discipline. Full-time volunteers are prohibited from handling money directly. Financial transactions are conducted only through authorised committees and bank accounts. Institutional and joint accounts are maintained at different organisational levels to ensure transparency and accountability. ■

(To be Continued...)



अस्तित्व, अस्मिता और विकास की चिंता में है जनजातीय समाज

भारतीय सांस्कृतिक चेतना व्यष्टि (व्यक्ति) और समष्टि ही नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि और परमेष्ठी (परमेश्वर) को भी एकसाथ समाहित किए हुए है। यह दार्शनिक भाव जनजातीयों में भी प्रबलता से विद्यमान है। दुर्भाग्य से जनजातीय समाज–संस्कृति को अंग्रेजी औपनिवेशिक दौर से और आजादी के बाद भी एक म्यूजियम के तौर पर अलग–थलग करके रखा गया। इस संदर्भ में मई 24, 2026 को लाल किले में आयोजित हुए 'जनजाति सांस्कृतिक समागम' ने एक इतिहास रच दिया है। भारतीय इतिहास में पहली बार देश के 12 करोड़ से अधिक जनजातियों के 500 से अधिक जनजातियों के प्रतिनिधि बंधुओं ने इतनी बड़ी संख्या में अपनी धर्म–संस्कृति–परंपरा की रक्षा का संकल्प लेकर दिल्ली के लाल किले में अपनी मजबूत दस्तक दी है। यह एक दिग्दर्शन था उस विराट संस्कृति–परंपरा का, जिसके अस्तित्व को लेकर चिंतित जनजातीय समाज सुदूर क्षेत्रों, वनों–पर्वतों से निकलकर दिल्ली आया। यह आयोजन केवल जनजातीय संस्कृति के उत्सव तक सीमित नहीं था, बल्कि इसे भारत की मूल सांस्कृतिक चेतना, ज्ञान परंपरा और सभ्यतागत पहचान के पुनःस्मरण एवं पुनर्स्थापन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जाना चाहिए।

भारतीय सभ्यता में वनवासी या जनजातीय समाज कभी पृथक और परिधि पर नहीं रहे, वे भारतीय सांस्कृतिक यात्रा के अभिन्न सहभागी रहे हैं। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी यह संबंध स्पष्ट दिखाई देता है। भगवान राम के जीवन का महत्वपूर्ण काल वन में बीतता है, जहाँ निषादराज गुह, माता शबरी और वानर समाज उनके विश्वसनीय सहयोगी बनते हैं। महाभारत के भीमसेन के पुत्र परमवीर घटोत्कच की माता हिडिम्बा एक जनजातीय महिला थीं। अर्जुन ने भी पूर्वोत्तर की जनजातीय राजकुमारियों उलूपी और और चित्रांगदा से विवाह किया था। राम का शबरी के जूठे बेर ग्रहण करना या महाभारत में भगवान शिव का किरात रूप धारण करना हमारी सांस्कृतिक एकात्मता का ही प्रतीक है।

वैदिक साहित्य में कहा गया है "माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः" अर्थात पृथ्वी मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। गौरतलब है कि भगवान बिरसा मुंडा 'धरती आबा' कहलाते हैं। पृथ्वी के प्रति यह अनुराग भारत में जनजातीय हो या गैर–जनजातीय समाज, दोनों ही की सांस्कृतिक परंपरा है। इसी तरह विभिन्न जनजातीय समुदाय स्थानीय देवी–देवताओं की पूजा करते हुए भी शिव, दुर्गा, हनुमान और ग्रामदेवताओं की परंपराओं से जुड़े रहे हैं। यह अनायास नहीं कि प्रसिद्ध एन्थ्रोपोलोजिस्ट जी एस घुर्ये ने अपनी पुस्तक 'द शेड्यूल ट्राइब' (1943) में 'जनजातीयों को पिछड़ा हिन्दू' कहा। भारत में अंग्रेजी शासन ने शुरू में ही समझ लिया था कि यदि यह सांस्कृतिक एकत्व और संबंध मजबूत बने रहे, तो राजनीतिक नियंत्रण खतरे में रहेगा। इसलिए उन्होंने भारतीय समाज को अलग–अलग खांचों में बाँटा। जनजातीय समाजों को 'मुख्य भारतीय समाज' से अलग एक पृथक नस्लीय–सांस्कृतिक इकाई के रूप में प्रस्तुत करने के पीछे यही षड्यंत्र था। अंग्रेज अधिकारियों और यूरोपीय नृवंशशास्त्रियों ने भारतीय समुदायों को ट्राइब, कास्ट, हिंदू, एनिमिस्ट आदि कठोर श्रेणियों में बाँटना शुरू किया। "तू–मैं, एक रक्त" के स्वाभाविक सांस्कृतिक एकात्म को कृत्रिम विभाजनकारी श्रेणियों में बदल दिया। इस विभाजन ने एक ओर जहां भारतीय संस्कृति को कमजोर किया, वहीं ईसाइयत में धर्मांतरण के उनके लक्ष्य को भी साधा।

दुर्भाग्यवश, स्वतंत्रता के बाद भी लंबे समय तक देश की सत्ता और बौद्धिक वर्ग का एक बड़ा हिस्सा औपनिवेशिक दृष्टि से प्रभावित रहा। विश्वविद्यालय, अकादमिक विमर्श और राजनीति भी इससे अछूते नहीं रहे। जनजाति समाज आज भी विभिन्न बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है। लेकिन आज उसके सामने सबसे बड़ा संकट है धर्म–संस्कृति एवं अस्तित्व की रक्षा का। ईसाई मिशनरियों ने सेवा के बहाने भोले–भाले जनजातियों का धर्मांतरण कर इनकी संस्कृति–सभ्यता को नष्ट करने का प्रयास किया। दुर्भाग्य से यह प्रयास आज भी जारी है। जनजाति समाज की ऐतिहासिक आवश्यकता के मद्देनजर संविधान में जनजातियों के लिए विशिष्ट प्रविधान हैं। लेकिन अपनी संस्कृति –परंपरा से जुड़ा व्यापक जनजाति समाज इनसे वंचित है। जबकि ईसाई पंथ अपनाकर जनजातीय परंपरा को छोड़ने वाले लोग, आज ईसाई होने के और जनजाति होने के दोहरे लाभ पा रहे हैं। एक अध्ययन के अनुसार उच्च पदस्थ 90% सरकारी नौकरियों पर 10% धर्मांतरित ईसाइयों ने कब्जा कर लिया है। इसके विरुद्ध पिछले कुछ वर्षों में 'जनजाति सुरक्षा मंच' के आंदोलनों में जनजाति समाज का आक्रोश स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दोहरा लाभ लेने वाले जनजाति व्यक्तियों को आरक्षण जैसी सभी सुविधाओं से वंचित करना, यही इस समस्या का प्रमुख हल लगता है। एक अन्य खतरनाक मुद्दा है – बोगस जनजातियों का। लाखों गैर–जनजाति लोगों ने जनजाति होने का झूठा प्रमाणपत्र बनाकर जनजातियों की नौकरियाँ हड़पने का एक बड़ा षड्यंत्र रचा है। यही नहीं, आज देश की अनेक जातियाँ केवल आरक्षण पाने के लिए स्वयं को जनजाति घोषित कराने की माँग कर रही हैं।

'लव जिहाद' की समस्या से जनजाति क्षेत्र भी अछूता नहीं है। भोली–भाली जनजाति युवतियों को प्रेमजाल में फँसाकर उनको लव जिहाद का शिकार बनाने की अनेक घटनाएँ सामने आ रही हैं। 'लैंड जिहाद' को लेकर भी जनजातियों में तीव्र आक्रोश है। बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों द्वारा जनजाति लड़कियों से विवाह कर उनकी जमीन हड़प लेना, उनको सरपंच जैसे महत्वपूर्ण पदों पर बैठाकर स्वयं सत्ता संभालना, जनजाति गांवों में आर्थिक वर्चस्व स्थापित करना– ऐसे कई गंभीर प्रकरणों पर मीडिया रिपोर्ट्स सामने आए हैं। इन सबने एक जनसांख्यिकीय (डेमोग्राफिक) परिवर्तन कर गंभीर जनसांख्यिकीय असंतुलन को जन्म दे दिया है।

हाल ही में भारत को नक्सलमुक्त करने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई। नक्सलवाद के संकट को अगर सीधे किसी ने झेला है, तो वह जनजाति समाज ही है। वनों–पर्वतों में रहने वाले भोले–भाले जनजाति बंधुओं को वामपंथ प्रेरित नक्सलवादियों ने पिछले 50 वर्षों से लगभग बंधक ही बना लिया था। इनके आतंक के कारण हजारों जनजातियों को अपने प्राण देने पड़े हैं। नक्सलवादी और पुलिस की बंदूकों की विचित्र कैद में फँसा जनजाति समाज आज राहत की साँस तो ले रहा है, लेकिन नक्सलवाद के कारण जनजाति क्षेत्र के बड़े हिस्से को विकास से दशकों तक वंचित रहना पड़ा।

चाहे ईसाई मिशनरी हों, इस्लामिक संगठन हों, वामपंथी विचारधारा हो, या फिर इन सभी ताकतों को समर्थन देने वाले तथाकथित बुद्धिजीवी और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ– इन सबका एक ही उद्देश्य है कि जनजाति समाज को इस देश की मुख्यधारा से अलग करना। भोले–भाले जनजातियों को भ्रमित कर उनके लिए अलग प्रदेशों की माँग करना हो, या जनजातियों को "मूल निवासी" बताकर अन्य सभी गैर–जनजातियों को बाहरी घोषित करना हो, या फिर रावण, महिषासुर, शूर्पणखा जैसे प्रतीकों के माध्यम से भ्रम फैलाना हो– इन सबके माध्यम से जनजातियों को फिर से बंधक बनाने के प्रयास निरंतर जारी हैं।

निःसंदेह वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के बाद जनजातीय विषय को लेकर सरकार और समाज दोनों स्तरों पर अपेक्षाकृत सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दिए। जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत, जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को राष्ट्रीय इतिहास में स्थान, संग्रहालयों की स्थापना, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का विस्तार और जनजातीय कला–संस्कृति को राष्ट्रीय मंचों पर सम्मान मिलना इसका संकेत है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना भी जनजातीय समाज के सम्मान और सहभागिता का प्रतीक है। इन सबने मूलतः शांत, सहज और संयमित जनजातीय समाज को आज अपेक्षाकृत मुखर बनाया है जो अपनी मूलभूत सांस्कृतिक मान्यताओं पर आघात से बहुत विचलित है। इसीलिए अपने अस्तित्व, अस्मिता और विकास की चिंता में यह समाज आज देश के सामने गुहार लगाने आया है। क्या आज भी हम अपने जनजातीय बंधुओं के साथ नहीं खड़े होंगे? ■

प्रो. निरंजन कुमार
डीन प्लानिंग और सीनियर प्रोफेसर,
हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

संक्रांति का स्नेह संपर्क

सेवा, समर्पण और कृतज्ञता का पावन पर्व

पृष्ठभूमिः वर्ष 1989 में 'एकल अभियान' का प्रथम चैप्टर 'वनबंधु परिषद्' कोलकाता में जनवरी 15, मकर संक्रांति के दिन विधिवत यज्ञ-पूजन के साथ प्रारंभ हुआ। परिषद् की प्रथम संगठन मंत्री होने का दायित्व वहन करने का सौभाग्य मुझे (मंजु श्रीवास्तव) प्राप्त हुआ।

मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठा कि क्यों न चैप्टर के साथ महिलाओं की भी एक समिति हो, जो अपने सुविधाजनक समय पर बैठक करें तथा संपूर्ण चिंतन में भागीदार बनें और मातृशक्ति की सहभागिता को भी महत्वपूर्ण स्थान मिले। चैप्टर के वरिष्ठ बंधुओं तथा मा. श्याम जी से मंत्रणा करने के पश्चात् कोलकाता में मात्र पाँच बहनों के साथ 'वनबंधु परिषद्' की प्रथम महिला समिति वर्ष 1992 में बनी।

धीरे–धीरे 5 से 25 बहनों का संगठन बना। प्रत्येक बैठक में एक ही विषय उठता कि 'हम बहनें गांव तो जा नहीं सकतीं, फिर हम किस प्रकार सेवा करें? ''संगठन को सक्रिय व सुदृढ़ रखने के लिए कार्यक्रम और प्रोजेक्ट्स चाहिए थे। परिणामस्वरूप, 'सेवापात्र योजना' और 'प्रदर्शनी योजना' जैसे कार्यक्रम प्रारंभ हुए। इसी क्रम में संक्रांति के अवसर पर दान की प्रथा को एक नया मोड़, एक नई दृष्टि तथा नये उद्देश्य के साथ वर्ष 1994 में प्रारंभ किया गया। घर–घर संपर्क करने हेतु पत्रक बनाए गए, जिसमें समाज की बहनों को संबोधित किया गया।

सेवा का विस्तार और प्रक्रियाः दान के महत्व की व्याख्या करते हुए यह संदेश दिया गया कि 'आज के वर्तमान संदर्भ में जो गांव–गांव में वंचित समाज को शिक्षा दे रहे हैं और जो देश–धर्म की रक्षा हेतु कठोर परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, वे ही सच्चे ब्राह्मण हैं।' अतः अपने स्थानीय ब्राह्मणों के साथ–साथ 'एकल' के आचार्यों तथा सेवाव्रतियों के लिए भी दान दें।

प्रारंभ में बहनों को अपने परिवार के बुजुर्गों को समझाने में कठिनाई हुई, परंतु ईश्वरीय कार्य में समस्याएँ तो आती ही हैं, और अंततः चुनौती ही अवसर बन जाती है। वर्ष 1994 से आज तक 'संक्रांति उपहार' बहनों का सबसे बड़ा पर्व बन गया है। निर्बाध रूप से जैसे–जैसे अभियान का कार्यक्षेत्र बढ़ता गया, बहनों की भागीदारी भी बढ़ती गई।

बहराइच अंचल में आयोजित आचार्य सम्मान समारोह कार्यक्रम

अब प्रतिवर्ष दीपावली के तुरंत बाद बहनें 'संक्रांति उपहार' हेतु संपर्क प्रारंभ कर देती हैं। अक्टूबर–नवंबर तक वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से विमर्श कर उपहार की वस्तुओं का निर्णय लिया जाता है और बजट निर्धारित होता है। ऑर्डर्स बुक किए जाते हैं और दिसंबर–जनवरी में उपहारों को विधिवत पैक कर सेवाव्रतियों के केंद्रों तक ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है। उपहारों में मुख्य रूप से वस्त्र, गरम वस्त्र, सूटकेस, पिट्ठू बैग, बोतलें, दरी, चादर, छाते, घरेलू सामान और बर्तन इत्यादि का संग्रह किया जाता है।

चुनौतियों में अटूट संकल्पः यह संग्रह धन के रूप में तथा सामग्री के रूप में भी किया जाता है। बहनों में इतना उत्साह रहता है कि 'कोविड' विपदा के समय, जब सब कुछ स्थिर हो गया था, तब भी बहनों ने विचारपूर्वक धन संग्रह किया और सभी सेवाव्रतियों एवं आचार्यों के खाते में 'उपहार राशि' भेजी गई।

एक छोटी सी शुरुआत आज एक बहुत बड़ा 'संक्रांति उपहार' अभियान बन गया है, जो 'बृहत महिला संगठन' का आधार बना। नगर संगठन की बहनों के साथ–साथ ग्राम संगठन की बहनों का देशव्यापी विस्तार हुआ। कुछ लाख के संग्रह से बढ़कर आज बहनें स्वयं अपने परिश्रम से करोड़ों का संग्रह कर लेती हैं। ग्राम संगठन की बहनों का नगर की बहनों के साथ अच्छा तारतम्य बना रहता है। ग्राम संगठन की बहनें स्वयं 'उपहार वितरण' और 'कार्यकर्ता सम्मान' के कार्य करने में सक्षम रहती हैं।

उपलब्धियां और निष्कर्षः आगे के संपूर्ण विवरण में आप पढ़ेंगे कि कैसे एक सुंदर व्यवस्था के साथ प्रत्येक नगर संगठन वनबंधु परिषद्, भारत लोक शिक्षा परिषद्, एकल विद्यालय फाउंडेशन तथा हर संभाग, भाग, अंचल और संच तक विस्तृत ग्राम महिला संगठन मिलकर 'एकल महा संक्रांति उपहार' कार्यक्रम को संपन्न करते हैं।

उपहार सभी विभागों के कार्यकर्ताओं के लिए समान रूप से वितरित किए जाते हैं। वर्ष 1994 से आज वर्ष 2026 तक बहनों ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, वह उनकी निष्ठा, कार्यकुशलता और धैर्य को परिलक्षित करता है। यह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने संकल्प को पूर्ण करने की उनकी अद्भुत क्षमता को दर्शाता है। ■

मंजु श्रीवास्तव
चेयरपर्सन, एकल संस्थान

मकर संक्रांतिः आत्मीयता का सेतु

वनबंधु परिषद की यात्रा वर्ष 1989 में ग्राम शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रोत्थान के पावन संकल्प के साथ प्रारंभ हुई। 'पंचमुखी शिक्षा' को आधार बनाकर शुरू हुआ यह कार्य आज 'एकल अभियान' के विशाल वटवृक्ष के रूप में हमारे सामने है। वनबंधु परिषद् इस अभियान की आधारशिला और मातृ–इकाई रही है।

भावनात्मक जुड़ाव और मातृ–शक्ति की भूमिकाः प्रारंभिक काल में जब नगरों में धन–संग्रह का कार्य मुख्य था, तब महिलाओं की भूमिका सीमित प्रतीत होती थी। किंतु जब 'ग्राम दर्शन' के माध्यम से माताएँ–बहनें कार्यकर्ताओं के परिवारों से मिलीं, तो उनके भीतर का 'मातृत्व' जागृत हो उठा। उन्होंने देखा कि अभावों के बीच भी ये कार्यकर्ता पूर्ण समर्पण से राष्ट्र निर्माण में जुटे हैं। नगर की संपन्न बहनों के लिए यह दृश्य हृदयस्पर्शी था। कार्यकर्ताओं के प्रति यह आदर भाव धीरे–धीरे पारिवारिक संबंधों में बदल गया।

श्रेणी	संख्या	विवरण
एकल विद्यालय (FTS)	45,035	आचार्य/आचार्या
पूर्णकालिक कार्यकर्ता	2,966	क्षेत्र में कार्यरत
आरोग्य सेविकायें	1,466	आरोग्य फाउंडेशन के अंतर्गत
अनुमानित व्यय/लक्ष्य	2 करोड़	प्रति वर्ष भेंट सामग्री हेतु
सक्रिय महिला सदस्य	3,500	धन संग्रह एवं वितरण में संलग्न

संक्रांति दान से सम्मान की ओरः भारतीय परंपरा में मकर संक्रांति दान का महापर्व है। महिला समिति ने इस परंपरा को एक नया और प्रासंगिक अर्थ दिया। जो पूर्णकालिक कार्यकर्ता अपना जीवन देश, धर्म और शिक्षा के लिए होम कर रहे हैं, वे आज के युग के 'श्रेष्ठ ब्राह्मण' हैं। अतः 'दान' के स्थान पर 'भेंट' के माध्यम से उनके सम्मान की संकल्पना का जन्म हुआ।

संगठनात्मक विस्तार और सुदृढ़ीकरणः वर्ष 2011 से इस कार्य में अभूतपूर्व गति आई। अब केवल कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि राष्ट्र की नींव गढ़ने वाले आचार्यों को भी इस सम्मान समारोह से जोड़ा गया। संभ्रांत परिवारों की माताएं, जिनके लिए कभी किसी के सम्मुख हाथ फैलाना स्वाभिमान के विरुद्ध था, उन्होंने राष्ट्र कार्य के लिए घर–घर जाकर 'संग्रह' करने को अपना मिशन बना लिया।

सेवा का विस्तारः एक दृष्टि में (वर्तमान स्थिति) – इस विशाल लक्ष्य

की प्राप्ति के लिए देश भर की 36 महिला समितियां और 14 सह–समितियां लगभग 3–4 माह तक पूर्ण मनोयोग से जुटी रहती हैं। पूर्व में दी गई तालिका इस सेवा कार्य की विशालता को दर्शाती है।

आत्मनिर्भरता और वितरण व्यवस्थाः यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस वर्ष अधिकांश समितियों ने स्वावलंबन के साथ धन संग्रह किया है। कार्यकर्ताओं की आवश्यकतानुसार कपड़े, कंबल, मिक्सर–ग्राइंडर, पंखे और बर्तन जैसे उपयोगी उपहारों का चयन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के परामर्श से किया जाता है। संक्रांति के इस पुण्य अवसर पर बहनें स्वयं अंचलों और गांवों तक प्रवास करती हैं और अपने हाथों से यह भेंट सादर अर्पित करती हैं। मकर संक्रांति का यह उपहार कार्यक्रम केवल सामग्री का वितरण नहीं, बल्कि नगर और ग्राम के बीच 'आत्मीयता का सेतु' है। कोविड काल की विपरीत परिस्थितियों में भी बहनों ने यह क्रम टूटने नहीं दिया और राशि सीधे बैंक खातों में पहुंचाई। बूँद–बूँद से सागर भरने की यह कहावत यहाँ चरितार्थ होती है। यह आयाम न केवल अहंकार को नष्ट करता है, बल्कि जीवन की सार्थकता का बोध भी कराता है। ■

विनीता जाजू
अध्यक्षा, वनबंधु परिषद् (महिला समिति)

मकर संक्रांतिः आचार्य एवं सेवाव्रती सम्मान

"आचार्य वह नींव का पत्थर है, जो इंसानियत और मानवता के साथ विद्यार्थी को राष्ट्र सेवा के लिए तैयार करता है।" इसी ध्येय वाक्य को आत्मसात करते हुए, इस वर्ष मकर संक्रांति के पावन अवसर पर भारत लोक शिक्षा परिषद् के 'राष्ट्रीय महिला विभाग' ने सेवा और कृतज्ञता का एक नया अध्याय लिखा है।

राम काज में संलग्न 'राम सेना' का सम्मानः हमारे एकल अभियान के सेवाव्रती कार्यकर्ता, जो 'राम वनवास' की भांति महीने में 25 दिन और कई बार महीनों तक अपने घरों से दूर राष्ट्र कार्य में रत रहते हैं, वे संगठन की सुदृढ़ आधारशिला हैं। उनकी इसी निष्काम सेवा को नमन करते हुए, इस वर्ष उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार एवं जम्मू के 1,291 सेवाव्रती कार्यकर्ताओं को उपहार स्वरूप जैकेट प्रदान कर सम्मानित किया गया।

इस पुनीत कार्य में दिल्ली (पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी), कानपुर और लखनऊ चैप्टर की 528 समर्पित बहनों ने सक्रिय सहयोग दिया। लगभग 13 लाख रुपये के धन संग्रहण से आयोजित यह कार्यक्रम केवल उपहार वितरण नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं के प्रति संगठन की आत्मीयता का संदेश है।

सफलता का संकल्प : आदरणीया मंजु दीदी के कुशल मार्गदर्शन में, इस वर्ष 25,230 एकल विद्यालयों के आचार्यों

सांख्यिकीय एक झलक (प्रभागानुसार वितरण):

प्रभाग	मुख्य क्षेत्र	संभाग	अंचल	संच	आचार्य संख्या
P6	हिमाचल व जम्मू	03	43	287	8,280
P5	बृजमंडल, उत्तराखंड व पश्चिम यू.पी.	03	25	263	6,472
P4	मध्य, पूर्व व दक्षिण यू.पी.	03	16	178	4,913
P3	उत्तर बिहार	01	11	100	3,000
	कुल योग	**10**	**95**	**828**	**22,665**

ब्रजमंडल संभाग में बीएलएसपी महिला विभाग द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मान समारोह

को सम्मानित करने का ऐतिहासिक लक्ष्य रखा गया। वर्तमान में 22,665 संचालित आचार्यों तक उपहार पहुँच चुका है।

क्षेत्रीय गतिविधियों के मुख्य बिंदु

लखनऊ चैप्टर: अंचल बाराबंकी के संच–मवई में श्रीमती बिंदु बोरा की अध्यक्षता में भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहाँ 30 बहनों का सम्मान किया गया।

कानपुर चैप्टर: श्रीमती अनुराधा वार्ष्णेय के नेतृत्व में बुंदेलखंड के कानपुर और हमीरपुर अंचलों में पाँच चरणों में कार्यक्रम हुए। यहाँ 670 से अधिक आचार्यों को साड़ियाँ और कुर्ता–पजामा भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया गया।

जम्मू चैप्टर : भाग–श्री माता वैष्णो देवी के उधमपुर अंचल में आचार्यों को उपहार भेंट किए गए।

एकल भाव: (One for All): इस योजना ने नगर संगठन और ग्राम संगठन के बीच 'प्रेम सेतु' का कार्य किया है। सम्मान प्राप्त करते समय कई आचार्यों की आँखें नम थीं। यह भेंट के मूल्य के कारण नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे स्नेह के कारण था। आचार्यों के परिजनों में भी इस सम्मान से गर्व की अनुभूति हुई है।

मकर संक्रांति का यह पर्व एकल परिवार के लिए केवल एक त्यौहार नहीं, बल्कि आपसी विश्वास और आत्मीयता को सुदृढ़ करने का माध्यम बना है। महिला विभाग का यह सतत प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए सेवा और संस्कार की प्रेरणा बना रहेगा। ■

सोनल रासीवासिया
राष्ट्रीय चेयरपर्सन,
राष्ट्रीय महिला विभाग, बीएलएसपी
माधुरी अग्रवाल
राष्ट्रीय उपप्रधान,
राष्ट्रीय महिला विभाग, बीएलएसपी

मकर संक्रांतिः एकात्मता का पर्व और एकल का स्नेह-स्पर्श

भारतीय कालगणना में त्योहार केवल तिथि विशेष का आयोजन नहीं, अपितु सामुदायिक एकात्मता, सांस्कृतिक गौरव और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता के जीवंत प्रतीक हैं। सनातन मूल्यों–एकता, प्रेम और धर्म की रक्षा हेतु ये पर्व ऊर्जा के अक्षय स्रोत हैं। इन्हीं में से एक देदीप्यमान पर्व है 'मकर संक्रांति'। पौष मास में जब भगवान सूर्य धनु राशि का त्याग कर मकर राशि में



प्रवेश करते हैं और उत्तरायण की यात्रा प्रारंभ होती है, तब संपूर्ण भारतवर्ष सहित नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों में इसे भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जाता है।

दान की महिमा और एकल का संकल्प:

शास्त्रों में वर्णित है कि मकर संक्रांति पर किया गया दान 10 अश्वमेध यज्ञ और 1,000 गौ–दान के समान पुण्य फलदायी होता है। 'एकल विद्यालय फाउंडेशन ऑफ इंडिया' (EVFI) इस आध्यात्मिक परंपरा को 'परिवार भाव' के साथ आत्मसात करता है। जिस प्रकार एक परिवार का मुखिया उत्सव के अवसर पर सभी सदस्यों को उपहार भेंट करता है, ठीक उसी प्रकार 'एकल' भी अपने विशाल परिवार के कर्मठ कार्यकर्ताओं और आचार्यों का सम्मान कर इस पर्व की सार्थकता सिद्ध करता है।

सेवा विस्तार एवं वितरण विवरण (वर्ष 2026)

इस वर्ष (2026) एकल परिवार ने अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए विभिन्न संभागों और अंचलों में कार्यरत राष्ट्र–शिल्पियों तक अपनी स्नेह–भेंट पहुँचाई। वितरण का सांख्यिकीय विवरण निम्नानुसार है:

सेवाव्रती एवं आचार्य संक्रांति उपहार 2025-26

प्रभाग	संभाग (कार्य क्षेत्र)	सेवाव्रती संक्रांति उपहार	अंचल	संच	आचार्य संक्रांति उपहार
प्रभाग P-6	1. पश्चिमी पंजाब	96	31	275	7080
	2. पूर्वी पंजाब	128			
	3. जम्मू & कश्मीर	225			
प्रभाग P-5	1. बृजमंडल	63	8	77	1970
	3. पश्चिम उत्तर प्रदेश	41			
प्रभाग P-4	1. मध्य उत्तर प्रदेश	142	25	296	7410
	2. पूर्वी उत्तर प्रदेश	123			
	3. दक्षिण उत्तर प्रदेश	107			
प्रभाग P-3	1. दक्षिण बिहार	180	11	112	2540
	वरिष्ठ सेवाव्रती	54			
	कुल योग -	1159	75	760	19000

स्नेह का सेतु: ये जैकेट और कंबल केवल भौतिक वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि देश के दुर्गम कोनों में 'अंधकार से प्रकाश' की ओर ले जाने वाले हमारे आचार्यों और कार्यकर्ताओं के प्रति संगठन की आत्मीयता का प्रमाण हैं। एकल अभियान का यह प्रयास नगर और ग्राम के बीच स्नेह के उस सेतु को सुदृढ़ करता है, जो अंततः 'परम वैभवशाली' भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा।

आनंद वडेरा
महामंत्री, एकल विद्यालय फाउंडेशन ऑफ इंडिया (EVFI)

एकल आचार्यों का सम्मान एवं मकर संक्रांति वितरण

मकर संक्रांति का पावन पर्व केवल खगोलीय परिवर्तन का प्रतीक नहीं, अपितु यह हमारे जीवन में सेवा, समर्पण और संस्कारों के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने का उत्सव है। इसी पावन अवसर पर, एकल अभियान के अंतर्गत ग्राम संगठन एवं नगर संगठन के संयुक्त तत्वाधान में एक विशेष 'आचार्य सम्मान एवं वितरण कार्यक्रम' का आयोजन किया गया। यह आयोजन उन समर्पित आचार्यों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक माध्यम है, जो समाज के अंतिम छोर पर बैठे वनवासी बालकों के जीवन में शिक्षा का आलोक फैला रहे हैं।

सेवा और संस्कार का संगम

एकल विद्यालयों के आचार्य अत्यंत सीमित संसाधनों में भी राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं। उनके इस निःस्वार्थ योगदान को नमन करते हुए, संच स्तर पर आयोजित 'मासिक अभ्यास वर्गों' में तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर उनका आत्मीय अभिनंदन किया गया। यह वितरण मात्र भौतिक वस्तुओं का नहीं, अपितु समाज की उन पर अटूट श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है।

संगठनात्मक प्रयास एवं धन संग्रह

इस पुनीत कार्य हेतु समाज के विभिन्न वर्गों ने अपनी सामर्थ्य अनुसार सहयोग किया है। धन संग्रह की रूपरेखा अत्यंत सुव्यवस्थित रही:

FTS आचार्यों हेतु: FTS महिला समिति द्वारा।

BLSP आचार्यों हेतु: ग्राम संगठन की संभाग, भाग, अंचल, संच एवं ग्राम महिला समितियों द्वारा।

EVFI आचार्यों हेतु: दिल्ली महिला समिति द्वारा।

EGS विद्यालयों हेतु: ग्राम संगठन की विभिन्न श्रेणियों (संभाग से ग्राम तक) की महिला समितियों द्वारा।

वितरण एवं सामग्री

समितियों के सहयोग से देशभर में आचार्यों को उनकी आवश्यकता और स्थानीय सुविधानुसार कंबल, जैकेट, दरी, कुर्ता–पाजामा, शर्ट–पैंट, साड़ी और बैग जैसी सामग्री सम्मानस्वरूप भेंट की गई। जहाँ सामग्री पहुँचाना सुलभ नहीं था, वहाँ ऑनलाइन माध्यम से सम्मान राशि प्रेषित की गई। इस पहल से न केवल आचार्यों का मनोबल बढ़ा है, बल्कि संच समितियों में भी एक नई ऊर्जा और सक्रियता का संचार हुआ है।

एकल अभियान

सांख्यिकीय दर्शन (भारतवर्ष) –संपूर्ण भारतवर्ष में एकल अभियान का विस्तार और वर्तमान स्थिति को निम्नलिखित तालिकाओं के माध्यम से समझा जा सकता है:

तालिका 1: संगठनात्मक संरचना एवं विद्यालय विस्तार

स्तर/श्रेणी	संख्या
प्रभाग	10
संभाग	36
भाग	79
अंचल	399
संच	3,429
कुल एकल विद्यालय	**96,519**

तालिका 2: विद्यालय संचालन व्यवस्था (श्रेणीवार)

संचालन संस्था	विद्यालयों की संख्या
FTS	46,319
EVFI	23,740
BLSP	25,230
EGS	1,230

तालिका 3: EGS विद्यालयों का प्रभागवार विवरण (ग्राम संगठन द्वारा संचालित)

प्रभाग	विद्यालयों की संख्या
P1	30
P2	240
P3	298
P4	133
P6	120
P7	199
P8	210
कुल	**1,230**

संपूर्ण भारत में सामग्री का वितरण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। हमारा सामूहिक उत्तरदायित्व है कि हम इन सेवाभावी आचार्यों के मनोबल को निरंतर बढ़ाते रहें, ताकि 'स्वस्थ, शिक्षित और संस्कारित भारत' का स्वप्न साकार हो सके। ■

सुषमा चौधरी
अध्यक्षा, ग्राम संगठन (महिला समिति)
प्राची गर्ग
सचिव, ग्राम संगठन (महिला समिति)



EKAL YUVA UDAAN

BLAZING THE TRAIL OF EDUCATION, DHARMA, AND YOUTH LEADERSHIP

EDITOR'S NOTE

In this deeply reflective essay, Dr. Subra Dravida traces the roots of his Ekal journey to the formative values of his childhood—values that naturally blossomed into a lifelong commitment to sewa. He then chronicles the birth of Ekal Udaan, a visionary initiative conceived with fellow Ekal USA leaders to inspire the next generation through knowledge, sewa, leadership, and the timeless ideals of dharma. His words resonate with quiet conviction, revealing how a shared vision, sustained by dedication and selfless effort, is transforming lives and shaping tomorrow's leaders.

A TEACHER WHO BECAME A FATHER TO MANY

My grandfather was a teacher deeply respected in his community. Children from surrounding villages stayed in his home so they could attend school and receive a proper education. He welcomed them as members of his own family, guiding them not only in academics but also in character and values.

Many of these children went on to become engineers, doctors, teachers, and successful professionals. Even after establishing their careers, they continued to regard him as a mentor and parent figure.

One of the most touching moments came when a former student asked my grandparents to officiate as his parents at his wedding. My grandfather's influence transcended the classroom; he helped shape lives, families, and futures.

His legacy stands as an example of guru-sevā, compassion, and ācārya-dharma—the sacred duty of a teacher.

A Personal Journey Toward Seva

By a stroke of fortune, I studied Electrical Engineering at IIT Madras and eventually entered the world of smartphone chip design. With my grandfather's influence serving as background, investing in rural education in India felt very natural and necessary. When I learned about Ekal Vidyalaya, I was immediately drawn to its mission. I began as a donor, then a volunteer, and ultimately a sevak.

Along the way, I was blessed with mentors such as Sri Subhash Gupta and Sri Ramesh Shah. More recently, I have had the privilege of working with our Chairman, Sri Mahesh Navani, a visionary leader who is poised to take Ekal Vidyalaya to new heights in empowering tribal and rural communities.

Ekal Yuva Udaan

Building the Next Generation of Leaders; In an earlier Ekal Prayas article, Sri Mahesh Navani outlined his vision for cultivating a new generation of youth leaders. This initiative Ekal Yuva Udaan is now moving from vision to implementation.

We are forming a **National Youth Council** composed of experienced Ekal youth leaders who have organized events in the U.S. and served in Ekal villages through teacher training and health-hygiene awareness programmes.

Fund-raising, Sewa and Cultural Expression

Each Ekal chapter in the U.S. will have its own **Youth Chapter**, guided by the National Council. These chapters will perform fund-raising and Sewa in their communities in the following ways.

- Organize cultural and fundraising events
    - o Ekal Youth have in the past conducted their own music and dance competitions
    - o During our festivals such as Diwali and Dussehra, they will perform festival themed performing arts programmes
- Lead seva activities such as tutoring underprivileged children
    - o Providing books and educational materials
    - o Serving in food banks and shelters

Youth Cultural Exchange

In 2025, we piloted a successful Youth Cultural Exchange Programme with Ekal India. Seven youth leaders travelled to Songarh and Chhindwara, teaching painting, basketball, and technology to village children. In return, they learned local music, dance, and customs from the local children. This year, the programme is expanding to fourteen participants and 3 locations. The 14 children from U.S. will work together with 14 children from India in this cultural exchange programme.

The Dharma Education Initiative

A Transformative Pillar: Among all the pillars of Ekal Yuva Udaan, Dharma Education is the most challenging—and the most essential. Dharma is a set of universal principles that help us live in harmony with society and nature while realizing our highest potential. It includes values such as Truth, **Ahimsa** (non-violence), **Dama** (self-control), **Daana** (generosity), and **Shraddha** (faith). While rituals support mental purification, Dharma transcends rituals. For Dharma to be assimilated, it must be relevant to everyday life.

A strong grounding in Dharma should help students:

- Interpret past events with clarity
- Make wise decisions for the future
- Develop focus and concentration
- Be action oriented
- Build resilience in the face of adversity
- Develop confidence and conviction to defend and promote Dharma when challenged.

Dharmic principles must be discussed, debated, and internalized.

Practical Skills for developing Inner Strength in daily living

Alongside Dharmic concepts, students will learn:

- Meditation
- Prāṇāyāma
- Yoga

Pilot Programmes in Boston

We are developing a Dharma curriculum and will pilot it at multiple sites in the Boston area starting in September. These pilots will guide us as we scale the programme to other chapters across the country.

A Vision Rooted in Service

From the humble homes of teachers who guided generations of students to the expansive mission of Ekal Vidyalaya today, the thread of Sewa continues unbroken.

Ekal Yuva Udaan is our opportunity to carry that legacy forward to empower youth, strengthen communities, and build a future grounded in knowledge, character, and Dharma. These Youth leaders will then constitute the next generations of leadership for organizations such as Ekal and will carry Dharma and Sewa forward and raise rural Bharat to great heights.

Call to Action - Join the Ekal Yuva Udaan Movement

Ekal Yuva Udaan is more than a youth initiative — it is a movement to inspire the next generation through Education, Sewa, Leadership, and Dharma.

We Invite

- Youth to participate in leadership, cultural exchange, and seva activities
- Parents to encourage and support youth involvement
- Volunteers and mentors to guide the next generation
- Donors to help expand these transformative programs across communities

Together, we can nurture compassionate leaders rooted in character, service, and cultural values. ■

Dr. Subra Dravida
President, EVF USA

एकल श्रीहरि का कार्य ईश्वरीय कार्य है।

– श्यामजी गुप्त

दिल्ली में आयोजित एकल श्रीहरि राष्ट्रीय समन्वय समिति बैठक

'अयोध्या के राजा श्रीराम की सेना में कौन शामिल था? वे सभी वनवासी थे जो जीवित भगवान हैं। उन्होंने त्रेता युग में श्रीराम की सेना बनना स्वीकार किया था। इसीलिए एकल अभियान ने इन सभी जीवित भगवानों (वनवासी समाज) की सेवा और पूजा करने का संकल्प लिया है। एकल का यह कार्य पूरी तरह ईश्वरीय कार्य है।'

यह कहना था एकल के प्रणेता मा. श्याम गुप्त का जो दिल्ली स्थित तेरापंथ भवन में जून 6–7, 2026 को 'एकल श्रीहरि राष्ट्रीय समन्वय समिति' की अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने माँ सीता के दो पुत्रों (लव–कुश) का उदाहरण देते हुए कहा कि जंगल में पले–बढ़े होने के बावजूद उन्होंने पूरी अयोध्या की सेना को परास्त किया, यही वनवासी समाज की मूल विशेषता और ताकत है। हमारा लक्ष्य पहले दिन से ही 'रामजी की सेना' तैयार करना रहा है और इसके लिए हमने सेवा को माध्यम चुना है। अब हमें गांवों में Ownership (स्वामित्व की भावना) जगानी है ताकि ग्रामीण समाज का स्वाभिमान जागृत हो सके। जिस प्रकार श्रीराम ने गांव–गांव घूमकर वनवासी समाज को प्रेम से जोड़ा और उनका स्वाभिमान जगाया, ठीक वही कार्य आज एकल अभियान को करना है। हमें केवल दिखावा नहीं करना, बल्कि वनवासी समाज को गले लगाकर उनके भीतर आत्मगौरव जगाना है। नगरों के प्रत्येक वार्ड में सत्संग केंद्र खोले जाने चाहिए, ताकि ग्रामीण जीवन से विमुख होकर शहरों की ओर भाग रहा वनवासी समाज अपनी जड़ों से जुड़ा रहे। हमारे गांव हमारे तीर्थ बनें और उनमें रहने वाले वनवासी हमारे आराध्यय यही हमारा ध्येय होना चाहिए। देश को हमेशा समाज ने बचाया है और यह समाज वीर तथा संगठित है।

इस दो दिवसीय बैठक में संगठन के भावी रोडमैप, विभिन्न चैप्टर्स की प्रगति रिपोर्ट, सामाजिक समरसता और आगामी लक्ष्यों पर गहन मंथन हुआ। इसके पूर्व जून 5, 2026 को एकल श्रीहरि राष्ट्रीय महिला समिति समन्वय की बैठक हुई, जिसमें महिलाओं द्वारा किए जा रहे विभिन्न समाज हितैषी कार्यों का विवरण दिया गया।

मुख्य वक्ता सुश्री विजया शर्मा, अखिल भारतीय तरुणी प्रमुख, राष्ट्र सेविका समिति ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारा सौभाग्य है कि हम सभी ने भारत भूमि में जन्म लिया और एक महिला के रूप में जन्म लेना जन्मों का सुफल है क्योंकि यहाँ स्त्री

एकल श्रीहरि राष्ट्रीय समन्वय समिति बैठक में परिचय देते सेवाव्रती कार्यकर्ता

को देवी की संज्ञा दी गई है। हमारे ऊपर जो कुठाराघात हो रहा है, उसके पीछे बाहरी शक्तियां हैं। उन्होंने पंच परिवर्तन विषय पर भी अपने विचार व्यक्त किए। एकल श्रीहरि के कार्यों की प्रशंसा करते हुए सुश्री विजया शर्मा ने इन्हें भारत भूमि के लिए, खासकर माताओं–बहनों के लिए अवश्यंभावी बताया।

संगठन और वैचारिक चेतना

राष्ट्रीय महिला समिति की समन्वय बैठक के द्वितीय सत्र का प्रारंभ आध्यात्मिक और ऊर्जावान वातावरण में हुआ। सत्र में जानकारी दी गई कि एकल श्रीहरि के कुल 14 महिला चैप्टर्स सक्रिय हैं, जिनमें से 08 महिला समितियों की इस बैठक में गरिमामयी उपस्थिति रही। उपस्थित सभी समितियों ने अपने–अपने चैप्टर्स की उपलब्धियों को साझा किया और आगामी वर्ष की कार्ययोजना पर विस्तार से प्रकाश डाला।

एकल संस्थान की अध्यक्षा श्रीमती मंजु दीदी ने संगठन की मजबूती पर बल देते हुए कहा कि 'स्वयं को तैयार करना' ही वह बीज वाक्य है जो संगठन को शक्ति देता है। जब हम स्वयं तैयार होंगे, हमारी माताएँ–बहनें तैयार होंगी, तो समाज को तैयार होने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने मा. श्याम जी की पुस्तक 'क्रांति राम की' को एक बड़ी मार्गदर्शिका बताते हुए सभी से इसे पढ़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जो देश आगे बढ़ता है और मजबूत होता है, वही दुनिया में अपना परचम लहराता है। हमारे गांव मजबूत होंगे तो देश स्वतः मजबूत होगा।

धन संग्रह एवं आगामी योजना के विषय में बताते हुए श्रीमती मधु गुप्ता ने जानकारी दी कि वर्ष 2025–26 में कुल 46,55,202 लाख रुपये का संग्रह हुआ है। वहीं, सुश्री सीमा आजगावकर ने आगामी योजना साझा करते हुए बताया कि अगले वर्ष से 'संक्रांति उपहार योजना' के माध्यम से नए परिवारों को संगठन से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने गांव–गांव में सत्संग चलाए जिससे संगठन का कार्य स्वतः होता गया। हमने कथाकारों के माध्यम से वनवासी क्षेत्रों में जागरण करने का कार्य किया। अब तक हमने धर्म जागरण का कार्य किया है, अब हम धर्म रक्षण का कार्य कर रहे हैं।

सामुदायिक पहुँच और संगठनात्मक विस्तार

तृतीय सत्र की शुरुआत श्री मुरारी लाल अग्रवाल की गरिमामयी उपस्थिति में हुई। इस सत्र में मंचासीन श्री राजेश गोयल, श्री विजय केड़िया, श्रीमती मीना अग्रवाल, डॉ. निर्मला पेड़ीवाल एवं डॉ. ललन शर्मा रहे।

श्री राजेश गोयल ने अपने उद्बोधन में महिला समिति की सराहना करते हुए कहा कि एकल ने जो Community Reach (सामुदायिक पहुँच) बनाई है, वह अद्वितीय है। बहनों का ऐसा Empowerment (सशक्तीकरण) और Leadership Role (नेतृत्व भूमिका) किसी अन्य संगठन में देखने को नहीं मिलती। हमें अपने काम के प्रभाव को देखते हुए हमेशा उसका आकलन (Assessment) करना चाहिए, तभी नए लोग हमसे जुड़ेंगे। सभी को साथ लेकर चलना ही किसी संगठन की सबसे बड़ी खूबी होती है। उन्होंने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि आज उच्च शिक्षा की आवश्यकता है, किंतु यदि वह सुशिक्षा और संस्कारयुक्त हो, तभी राष्ट्र निर्माण संभव है।

डॉ. ललन शर्मा ने कहा कि हम सभी अपने घरों से निकलकर देश–चिंतन में जुटे हैं। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा और आलस्य त्यागने पर विशेष जोर दिया था। हम शिक्षित तो हैं ही, अब हमें आलस्य को त्यागकर समाज हित में और अधिक मजबूती से जुटना है। शिक्षा की परिभाषा हमारे पारंपरिक संस्कारों में निहित है, जो हमारे भीतर बदलाव लाती है। समय की मांग के अनुरूप संगठन निरंतर आगे बढ़ रहा है।

विचार क्रांति की परिकल्पना को विस्तार से बताते हुए श्री रामेश्वर दयाल ने कहा कि हमारा मूल विचार रामजी की सेना के सैनिक बनाना है और हमारे सेवाव्रती कार्यकर्ता ही इसके असली सैनिक हैं। अनुकूलता

EKAL PRAYAS
A Family Magazine With Social Concern
एकल प्रयास
सामाजिक सरोकार की पारिवारिक पत्रिका

हमें फिसलन की ओर ले जाती है और संघर्ष से व्यक्ति में निष्ठता आती है। विचार क्रांति के माध्यम से दैनिक संदेश और संगठन सूत्र आदि लगातार प्रेषित किए जा रहे हैं। इस सत्र में विभिन्न प्रांतों से आईं बहनों ने अपने–अपने विचार व्यक्त किए, जिनमें मुख्य रूप से शामिल थीं, श्रीमती लक्ष्मी अग्रवाल (सूरत), श्रीमती कामायनी श्रेष्ठ (दिल्ली), श्रीमती रेखा काकानी (इंदौर) और श्रीमती उषा गोयल (मुंबई)।

इसके पश्चात 'प्रश्न मंजूषा' सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें महिला समिति की सदस्यों ने एकल एवं सामाजिक जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। इस सत्र का कुशल संचालन सुनीला भाटिया ने किया।

संगठनात्मक उपलब्धियों की झलक

- सत्र के अंत में निर्मला पेड़ीवाल ने देश भर के चैप्टर्स की प्रगति रिपोर्ट साझा की।
- दिल्ली चैप्टर ने शानदार कार्य करते हुए 45 सब–चैप्टर्स का निर्माण किया है।
- बेंगलुरु में सदस्यों की संख्या में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
- मुंबई और सूरत चैप्टर्स ने धन संग्रह का बहुत बड़ा कार्य किया है और साथ ही वहाँ युवा समिति का गठन भी किया गया है।
- हल्द्वानी में एक नया चैप्टर स्थापित किया गया है।
- वर्ष 2025–26 के लिए कुल संग्रह 54,18,000 रुपये रहा।

'हम रामजी की सेना तैयार करेंगे'

मंचासीन: नंदकिशोर अग्रवाल, विनीत लोहिया, राजेश गोयल, लक्ष्मी गोयल, बुलाकीदास मिमानी, मुरारीलाल अग्रवाला एवं निर्मला पेढ़ीवाल

मा. श्याम गुप्त ने विशेष बौद्धिक सत्र में एकल अभियान के ऐतिहासिक सफर और वैचारिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए बताया कि एकल का पहला विचार वर्ष 1989 में पूजनीय डॉक्टर साहब (डॉ. हेडगेवार जी) की जन्मशताब्दी पर आया था। उस समय श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी की उपस्थिति में हुई एक बैठक में यह विचार कौंधा कि 'संघ को इतने वर्ष हो गए, हमने ऐसा क्या किया जो डॉक्टर साहब के चरणों में समर्पित कर सकें?' उस समय वनवासी समाज के बड़े पैमाने पर हो रहे धर्मांतरण को रोकने की चुनौती सामने आई। तब यह सर्वसम्मति से तय हुआ कि वनवासी समाज के धर्मांतरण को रोकने का एकमात्र और सबसे प्रभावी माध्यम 'शिक्षा' ही बनेगी।

इसके पश्चात उन्होंने बताया कि राममूर्ति कमीशन के अस्तित्व में आने के बाद शिक्षा की चुनौतियों पर चर्चा शुरू हुई और 'जॉयफुल एजुकेशन' की बात उठी। ऐसे समय में भाऊराव देवरस जी ने इस शिक्षा को ग्रामीण व वनवासी अंचलों तक पहुँचाने का बीड़ा उठाया और इस प्रकार 'एकल विद्यालय' का जन्म हुआ। इस कार्य में डॉ. राकेश पोपली ने जॉयफुल एजुकेशन पर गहन रिसर्च किया और कल्याण आश्रम के कोषाध्यक्ष श्री मदनलाल अग्रवाला को इस पुनीत कार्य में लगाया। पहली बैठक में श्री शंकर तिवारी, श्री राजाभाऊ, श्री श्याम गुप्त और श्री मदन बाबू रांची में बैठे और गहन चिंतन के बाद इसकी कार्यपद्धति तैयार हुई। पहली ही बैठक में तय हुआ था कि हम 'राम जी की सेना' तैयार करेंगे।

मा. श्याम गुप्त ने श्रीहरि कथा योजना के जन्म की कथा सुनाते हुए अयोध्या में आयोजित 'राष्ट्रीय सत्संग प्रतियोगिता' की सफलता के लिए सेवाव्रतियों एवं एकल भारत की टीम का विशेष सम्मान किया।



एकल श्रीहरि
राष्ट्रीय समन्वय समिति बैठक

विभिन्न संभागों से पधारी महिला समिति की पदाधिकारीगण

बैठक के प्रथम दिन के सत्र का कुशल संचालन श्री विजय केड़िया द्वारा किया गया। मंच पर संगठन के शीर्ष नेतृत्व और प्रबुद्ध जनों की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिनमें श्री राजेश गोयल, श्री लक्ष्मी गोयल, श्री नंदकिशोर अग्रवाल, श्री विनीत लोहिया, श्री बी.डी. मिमानी, श्री मुरारीलाल अग्रवाला एवं श्रीमती निर्मला पेड़ीवाल प्रमुख थीं।

बैठक की शुरुआत में दिल्ली श्रीहरि चैप्टर के अध्यक्ष श्री नंदकिशोर अग्रवाल ने सभी आगंतुकों का आत्मीय स्वागत किया। अपने स्वागत भाषण में उन्होंने कहा, 'पूरे देश की जो भौगोलिक और सामाजिक परिस्थिति है, उसमें दिल्ली का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। संस्कारयुक्त शिक्षा, सत्संग और सुदृढ़ संगठन के माध्यम से 'एकल श्रीहरि' पूरे मनोयोग से देश के कोने–कोने में सेवा कार्यों में जुटी हुई है।'

इस अवसर पर श्री महेश मित्तल द्वारा प्रेषित लिखित प्रस्ताव का वाचन श्री विजय केड़िया द्वारा सदन के सम्मुख किया गया। डॉ. साधना मोढ़ द्वारा पिछले वर्ष का लेखा–जोखा साझा किया गया तथा जून 21–22, 2025 को आयोजित बेंगलुरु बैठक की समीक्षा की गई, जिसमें 104 सदस्य सम्मिलित हुए थे।

मुख्य वक्ता श्री शांतनु गुप्ता ने वैश्विक बनाम भारतीय दृष्टि पर बोलते हुए अपने उद्बोधन में जीवन के दोनों दृष्टिकोणों की तुलना की। वैश्विक दृष्टि के विषय में उन्होंने बताया कि यह दृष्टिकोण 'अपने पैसे कमाओ और खुद पर उपभोग (Consume) करो' की संकीर्ण मानसिकता पर आधारित है जबकि भारतीय दृष्टि 'पुरुषार्थ' की है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के चार स्तंभों पर टिकी है। यहाँ की जीवनशैली वेदांत से प्रभावित है, जिसके मूल में भक्ति और भजन हैं। एकल श्रीहरि ने इसी समृद्ध परंपरा को ग्रामीण और वनवासी भारत की जीवनशैली में गहराई तक उतारने का भगीरथ कार्य किया है।

वहीं एकल ग्राम संगठन के अध्यक्ष श्री अतुल शाह ने ग्राम संगठन की भूमिका पर प्रकाश डाला और नगर संगठन एवं सेवाव्रतियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

श्री राकेश बंसल ने हनुमान परिवार योजना के विषय में बताते हुए कहा कि आंतरिक चुनौतियों से जूझने के लिए ग्राम स्तर पर 'हनुमान परिवार' बनाना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस योजना का नामकरण इसी सोच के साथ किया गया है कि जितने भी कठिन से कठिन कार्य थे, वे सभी हनुमान जी ने सिद्ध किए। इसी प्रकार हनुमान परिवार भी दुर्गम क्षेत्रों में कठिन कार्य करेगा और शहरों की शक्ति बस्तियों (मलिन बस्तियों) में चुनौतियों से डटकर लड़ेगा। बैठक में विभिन्न चैप्टरों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

भविष्य का संकल्पः विजन 2030

बैठक के समापन सत्र में संगठन ने आगामी वर्षों के लिए एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और युगांतरकारी लक्ष्य निर्धारित किया –

'लक्ष्य 2030ः पाँच लाख गांवों को संस्कार शिक्षा ग्राम बनाना।'

इस विजन को धरातल पर उतारने के लिए देश भर में 10,000 नए 'संस्कार शिक्षा प्रमुख' तैयार किए जाएंगे और संगठन का विस्तार करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में नए चैप्टरों का गठन युद्ध स्तर पर किया जाएगा।

यह दो दिवसीय बैठक राष्ट्र निर्माण और वनवासी कल्याण के प्रति एकल श्रीहरि के संकल्प को और अधिक सुदृढ़ करने वाली सिद्ध हुई। ■

सिद्धार्थ शंकर गौतम
उप–संपादक, एकल प्रयास

सेक्टर 27 स्थित नोएडा क्लब में 'एकल अभियान' के तहत एक विशेष कार्यक्रम 'एकल को जानो' का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विचारकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के सुदूर, सीमांत और जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, संस्कार और स्वावलंबन की अलख जगाने वाले 'एकल अभियान' के कार्यों, इसकी ऐतिहासिक यात्रा और भविष्य की योजनाओं से जनमानस को अवगत कराना था।

श्री पवन विजय (पीछे श्री कमल कांत शर्मा)

श्री कमलेश कमल

एकल को जानो
कार्यक्रम का आयोजन

राष्ट्र निर्माण और सांस्कृतिक संरक्षण में एकल अभियान की भूमिका पर मंथन

कार्यक्रम में वक्ताओं ने एकल विद्यालय की पंचमुखी शिक्षा पद्धति की सराहना की और इसे राष्ट्र के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का मुख्य आधार बताया।

37 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा और भविष्य का रोडमैप: मनोहर लाल

एकल अभियान के सह–अभियान प्रमुख श्री मनोहर लाल ने एकल अभियान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और इसके 37 वर्षों के गौरवशाली सफर को श्रोताओं के सामने रखा। उन्होंने आंकड़ों और अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि कैसे एक छोटे से विचार ने आज एक विशाल वटवृक्ष का रूप ले लिया है। उन्होंने भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि आने वाले समय में एकल अभियान तकनीकी शिक्षा, डिजिटल साक्षरता और ग्रामीण युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है।

सीमांत क्षेत्रों में एकल की भूमिका अद्वितीय: कमलेश कमल

आईटीबीपी के जनसंपर्क अधिकारी श्री कमलेश कमल ने सीमांत और संवेदनशील क्षेत्रों में एकल अभियान की उपस्थिति और उसकी रणनीतिक भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "देश के जो क्षेत्र भौगोलिक रूप से अत्यंत दुर्गम हैं और जहाँ मुख्यधारा की सुविधाएँ देर से पहुँचती हैं, वहाँ एकल अभियान के स्वयंसेवकों ने सबसे पहले पहुँचकर शिक्षा की नींव रखी। सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले हमारे भाई–बहन देश के सजग प्रहरी हैं। एकल अभियान उन्हें न केवल साक्षर बना रहा है, बल्कि उनमें राष्ट्रवाद की भावना को भी सुदृढ़ कर रहा है।

संस्कार युक्तशिक्षा ही राष्ट्र की असली धरोहर: पवन विजय

प्रसिद्ध वक्ता एवं इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पवन विजय ने अपने संबोधन में एकल अभियान के शिक्षा मॉडल को भारत की सनातन परंपरा और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केवल किताबी ज्ञान से किसी राष्ट्र का कल्याण नहीं हो सकता, जब तक कि उसमें संस्कारों का समावेश न हो।

पंचमुखी शिक्षा से बढ़ता है आत्मबल: कमलकांत शर्मा

सीआरपीएफ के पूर्व महानिदेशक श्री कमलकांत शर्मा ने एकल अभियान की रीढ़ मानी जाने वाली 'पंचमुखी शिक्षा' (प्राथमिक शिक्षा, आरोग्य, विकास, संस्कार और जागरण) के दर्शन को समझाया। उन्होंने इसे सीधे तौर पर व्यक्ति और समाज के 'आत्मबल' से जोड़ा।

उन्होंने विस्तार से बताते हुए कहा कि प्राथमिक शिक्षा और संस्कार बच्चे को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं जबकि आरोग्य और विकास ग्रामीण क्षेत्रों को शारीरिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाते हैं। वहीं जागरण शिक्षा ग्रामीणों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत करती है। इस वैचारिक उत्सव में कई जानी–मानी हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

सिद्धार्थ शंकर गौतम
प्रचार–प्रसार प्रभारी, एकल संस्थान
उप–संपादक, एकल प्रयास

2 लाख एकल गांवों के 3 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया, जहाँ विद्यार्थियों, शिक्षकों, आरोग्य सेविकाओं और समुदाय के सदस्यों ने योग सत्रों और जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लिया। इस आयोजन ने शारीरिक फिटनेस, मानसिक तंदुरुस्ती और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के साथ–साथ जीवन जीने के एक तरीके के रूप में योग के महत्व को मजबूत किया और समुदायों को स्वस्थ व अनुशासित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में देश के 108 प्रतिष्ठित संस्थाओं की सक्रिय सहभागिता रही।

संजय मालवीय
केंद्रीय प्रचार प्रमुख, एकल अभियान

एकल अभियान जम्मू संभाग (अंचल अखनूर) के तत्वावधान में एक भव्य 'सैनिक सम्मान कार्यक्रम' का आयोजन किया गया। इस गौरवमयी समारोह में देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले 150 से अधिक पूर्व एवं वर्तमान सैनिकों को अंगवस्त्र और स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के हजारों स्थानीय नागरिकों और प्रबुद्ध जनों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई।

सम्मानित सैनिक, पूर्व सैनिक एवं उनके परिवारीजन

सैनिक सम्मान समारोह

वीर सैनिकों को मिला सम्मान, आंतरिक चुनौतियों से निपटने का हुआ आह्वान

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अखनूर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री मोहनलाल भगत उपस्थित रहे। उनके साथ मंच पर शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक (जॉइंट डायरेक्टर) श्री गुरुदेव कुमार, ई–शिक्षा प्रभारी श्रीमती अनु भसीन, संभाग अध्यक्ष श्री जगदीश चंद्र सानी, और महिला समिति की अध्यक्षा श्रीमती सोनिका देवी विशेष रूप से मौजूद रहे। इसके साथ ही भारत लोक शिक्षा परिषद् के महासचिव श्री हरदीप अग्रवाल सहित क्षेत्र के कई गण्यमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

सम्मानित होते पूर्व सैनिक

सीमाओं पर सेना तो देश के भीतर एकल अभियान मुस्तैदः समारोह के मुख्य वक्ता एकल अभियान के संभाग प्रमुख श्री विजय कुमार ने कहा ''जिस प्रकार हमारे वीर जवानों के पराक्रम से देश की भौगोलिक सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं, उसी प्रकार आज देश के भीतर आंतरिक सुरक्षा की भारी कमी महसूस हो रही है। आंतरिक आतंकवाद, नशाखोरी, भ्रामक विचारधाराएं और छद्म आतंकवाद हमारे देश को भीतर से कमजोर करने का निरंतर प्रयास कर रहा है। इन सामाजिक कुरीतियों और देशविरोधी ताकतों से लड़ने के लिए एकल अभियान और पूर्व सैनिकों को मिलकर एक साझा मोर्चे के रूप में आगे बढ़ना होगा।''

कार्यक्रम में विशिष्ट वक्ता के रूप में उपस्थित कैप्टन शमशेर सिंह ने मंच से पूर्व व वर्तमान सैनिकों को संबोधित करते हुए उनके शौर्य को नमन किया। उन्होंने कहा कि वर्दी उतारने के बाद भी एक सैनिक का कर्तव्य समाप्त नहीं होता; समाज में फैली विसंगतियों को दूर करने के लिए सैनिकों का अनुशासन सबसे बड़ा हथियार है।

विधायक श्री मोहनलाल भगत एवं शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक (जॉइंट डायरेक्टर) श्री गुरुदेव कुमार ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए एकल अभियान के इस अनूठे प्रयास की सराहना की। ■

मीडिया बीएलएसपी

सम्मान समारोह में उपस्थित जन समुदाय

अरुणाचल प्रदेश में कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं महिला सशक्तिकरण केन्द्र का उद्घाटन

एकल ग्रामोथान फाउंडेशन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट क्षेत्र के अंतर्गत ओयान चाराली में इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट (IVD) प्रोजेक्ट का उद्घाटन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह प्रशिक्षण केन्द्र ईष्ट सीयांग जिले के ओयान चाराली स्थित पीजी कॉम्प्लेक्स में स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास को गति देना है।

इस IVD प्रकल्प के माध्यम से सिलाई (टेलरिंग) एवं कंप्यूटर प्रशिक्षण जैसे महत्वपूर्ण कौशल आधारित पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। साथ ही निकट भविष्य में ब्यूटीशियन कोर्स तथा जैविक खेती (ऑर्गेनिक फार्मिंग) हेतु किसान प्रशिक्षण भी शुरू किए जाने की योजना है, जिससे स्थानीय किसान, युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा। एकल ग्रामोथान फाउंडेशन, उत्तर–पूर्व क्षेत्र के जोनल कोऑर्डिनेटर श्री राहुल कुमार साह ने मंच पर उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया, उनका परिचय कराया तथा सभी अतिथियों को वनवासी परंपरा के अनुसार सांस्कृतिक गमछा (पट्टा) भेंट कर सम्मानित किया।

एकल अभियान के केंद्रीय टोली कार्यकर्ता श्री रमेश लिम्बू ने "सेवा से सम्पर्क, सम्पर्क से संगठन, संगठन से स्वावलम्बन और स्वावलम्बन से स्वाभिमान" इस उद्घोष को ध्यान केंद्रित कर अपने संबोधन में एकल अभियान एवं एकल ग्रामोथान फाउंडेशन के इतिहास, अवधारणा, उद्देश्य और योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यह संगठन ग्रामीण भारत के समग्र विकास हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और संस्कार क्षेत्रों में निरंतर कार्य कर रहा है। इस अवसर पर मुख्य रूप से IVD पासीघाट के अध्यक्ष श्री कांतम पांग्गम, एकल अभियान ईष्ट अरुणाचल–1 के सचिव श्री तामाक ताकोह, उपाध्यक्ष श्री ओमन मोयांग, ओयान–1 ग्राम पंचायत अध्यक्ष श्री गौतम तामुत, ओयान–2 की ग्राम पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ओयेम तामुत, तथा ओयान–3 के ग्राम पंचायत अध्यक्ष श्री डिओन डोले सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। साथ ही ओयान क्षेत्र की जिला परिषद सदस्य सुश्री अनु पाबो कोमात भी उपस्थित रहीं। अतिथियों ने प्रशिक्षण कक्षाओं का अवलोकन किया और इस पहल के लिए एकल ग्रामोथान फाउंडेशन की सराहना करते हुए इसे ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े उत्तर–पूर्व क्षेत्र के जोनल हेड श्री पवन कुमार अग्रवाल ने अपने प्रेरणादायक संबोधन में समिति एवं कार्यकर्ताओं की भूमिका पर प्रकाश डाला और केंद्र के सफल संचालन हेतु मार्गदर्शन दिया। स्थानीय नागरिक के रूप से श्री काताम योमसो ने भी एकल अभियान एवं एकल ग्रामोथान फाउंडेशन के ग्रामीण विकास कार्यों की प्रशंसा की।

अंत में IVD के अध्यक्ष श्री कांतम पांग्गम ने अपने मन्तव्य में सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह प्रशिक्षण केंद्र समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और युवाओं को कौशल के माध्यम से सशक्त बनाएगा। धन्यवाद ज्ञापन श्री तामाक ताकोह द्वारा प्रस्तुत किया गया। एकल ग्रामोथान फाउंडेशन का यह प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता, कौशल विकास और समग्र प्रगति की दिशा में एक सशक्त पहल के रूप में देखा जा रहा है। ■

सोशल मीडिया टीम जीआरसी
(विशेष आभार श्री रमेश लिंबू)

Campus Study Circle at IITM Janakpuri, Delhi

The Institute of Information Technology and Management (IITM), Janakpuri, organised a Campus Study Circle session in the institute auditorium in collaboration with Ekal Sansthan. The session was conducted by Prof. (Dr.) Ramandeep Kaur, Joint Secretary, Ekal Sansthan, for first and second year students of BBA, BCA, BAJMC, and B. Com (H) programmes.

The session aimed to introduce students to the vision and initiatives of Ekal Sansthan, a people-driven movement dedicated to empowering rural India through education and holistic development. Drawing inspiration from Swami Vivekananda's philosophy—"If a child cannot go to school, the school must reach the child"—the discussion highlighted how Ekal has been working at the grassroots level to bring education and awareness to remote villages.

Prof. Kaur elaborated on the **Ekal Model of Social Change,** which focuses on five-fold education and aims to build Shikshit (educated), Jagruk (aware), Swasth (healthy), Surakshit (safe), Vyasanmukt (addiction-free), Samras (harmonious), Swawlambi (self-reliant), and Sangathit (united) villages. She emphasized how this model contributes to the vision of an empowered and self-sustained rural India.

A key highlight of the session was the introduction to the **Ekal Study Circle** and the concept of establishing a **Campus Ekal Circle (CEC)** within educational institutions. This initiative seeks to bridge the gap between urban youth and rural communities through the **Ekal Rural Immersion (ERI) Programme.** Students were encouraged to actively participate in research-based projects, social entrepreneurship, and community engagement activities.

The session also showcased innovative initiatives such as **Ekal E-Shiksha,** which integrates digital tools like tablets to enhance learning in rural schools, and the evolving **Ekal-on-Wheel** model that aims to deliver services such as digital literacy, STEM education, and basic healthcare to underserved areas.

Prof. Kaur motivated students to contribute meaningfully by developing research papers, mobile applications, documentaries, and entrepreneurial solutions that address real-life rural challenges. She also highlighted the academic and professional benefits of participation, including internships, certificates, and opportunities for higher education.

The interactive session generated keen interest among students, who actively engaged in discussions and explored ways to become part of the initiative. The programme concluded with a strong message of youth involvement in nation-building by connecting with grassroots realities and contributing to inclusive growth.

The Campus Study Circle reflected IITM's commitment to experiential learning, social responsibility, and fostering a deeper understanding of rural India among students. ■

Editorial Team

Launching of the LED Bulb Making & Repairing Course by EGF

Ekal Gramothan Foundation marked a significant milestone in its journey toward sustainable rural development with the launch of its first-ever LED Bulb Making & Repairing Course at GRC Jarangloi, Odisha. More than the inauguration of a new training programme, this initiative represents a strategic expansion of livelihood-oriented skill development designed to prepare rural communities for the opportunities of a rapidly evolving economy.

Participants engaged in the training workshop

The programme introduces participants, particularly rural youth and women, to practical technical skills in LED bulb assembly, maintenance, and repair. By combining hands-on learning with entrepreneurship-oriented training, the course seeks to transform learners from consumers of technology into creators and service providers within their own communities.

From Craft to Commerce - Reimagining Livelihoods through Crochet

Crochet learners at the Hathras Training Centre

In a world increasingly driven by automation and mass production, the value of handmade craftsmanship is witnessing a remarkable resurgence. Recognizing this emerging opportunity, Gramothan's Women Empowerment Centre in Hathras launched its Crochet Training Programme, opening new avenues of skill development and entrepreneurship for women and youth.

The programme commenced with traditional rituals and enthusiastic participation from 50 learners, symbolizing the beginning of a journey that extends far beyond learning a craft. Crochet today is not merely a hobby; it represents a growing creative industry with expanding demand for handcrafted fashion accessories, home décor products, toys, and customized gifts. Through this initiative, participants are being introduced to skills that can be transformed into sustainable micro-enterprises and home-based businesses.

Where Strength Finds Its Voice - A New Beginning in Chatra

In the quiet district of Chatra, Jharkhand, something powerful began - not with noise, but with determination. A batch of 20 young girls stepped onto the training floor, not just to learn Self Defence Training, but to discover a strength they had always carried within.

Girls attending the self-defence training session

This programme organised by Ekal Gramothan Foundation goes beyond physical training. It is about confidence, courage, and self-belief -qualities that no classroom alone can teach. For many of these girls, this is their first step into a space where they are not told to stay back but encouraged to step forward. Each kick, each stance, each movement becomes more than practice - it becomes a statement: "I am capable. I am strong. I am not afraid."

In regions where opportunities often arrive late, this initiative arrives with purpose. It tells every girl that empowerment is not just about skills for livelihood, but also about the power to stand tall, to protect oneself, and to lead with confidence.

EKAL PRAYAS
A Family Magazine With Social Concern
एकल प्रयास
सामाजिक सरोकार की पारिवारिक पत्रिका

राष्ट्रीय युवा सम्मेलन

अभिज्ञ 3.0 का आयोजन

एफटीएस युवा द्वारा आयोजित वार्षिक राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 'अभिज्ञ 3.0' का आयोजन रांची में अत्यंत भव्य, प्रेरणादायी एवं राष्ट्र चिंतन से ओत–प्रोत वातावरण में संपन्न हुआ। इस वर्ष सम्मेलन का केंद्रीय विषय – "भारत को हम भारत कैसे बनायें" रहा, जिसने युवाओं को राष्ट्र निर्माण, संस्कार, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं भारतीय मूल्यों के प्रति जागरूक होने की प्रेरणा प्रदान की। तीन दिवसीय इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देशभर के 16 से अधिक शहरों से आए 150 से अधिक एफटीएस युवा सदस्यों ने सहभागिता कर इसे एक सशक्त राष्ट्रीय युवा मंच का स्वरूप प्रदान किया।

सम्मेलन का शुभारंभ झारखंड के मा. राज्यपाल श्री संतोष गंगवार के करकमलों द्वारा हुआ। अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में उन्होंने कहा कि, "एफटीएस" इतना उत्कृष्ट कार्य कर रही है कि मुझे यहाँ बोलने नहीं, बल्कि सुनने के लिए आना चाहिए था।" इस अवसर पर उन्होंने एफटीएस युवा की वार्षिक स्मारिका का विमोचन भी किया।

सम्मेलन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित वक्ताओं ने युवाओं का मार्गदर्शन किया। प्रथम दिवस पर सुप्रसिद्ध लेखिका एवं वक्ता श्रीमती शेफाली वैद्य सहित अन्य वक्ताओं ने सांस्कृतिक जागरूकता, वैचारिक स्पष्टता एवं भारतीय दृष्टिकोण जैसे विषयों पर अपने विचार साझा किए। उनके प्रेरक वक्तव्यों ने युवाओं में अपनी संस्कृति एवं परंपराओं के प्रति गौरव की भावना को और अधिक सुदृढ़ किया।

द्वितीय दिवस पर भारत की पूर्व आईपीएस अधिकारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. किरण बेदी, श्रीमती रेनुका गोस्वामी एवं सुश्री पारिधि मंगलमपल्ली ने सामाजिक नेतृत्व, महिला सशक्तिकरण एवं राष्ट्रीय चेतना जैसे विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इसी अवसर पर 'गुरुकुल' पुस्तक का संयुक्त रूप से विमोचन किया गया। इस दिन प्रसिद्ध लेखक एवं निर्देशक श्री अतुल सत्य कौशिक ने युवाओं को नेतृत्व, सेवा एवं सामाजिक परिवर्तन की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया।

सम्मेलन के अंतिम दिवस पर मुख्य वक्ता श्री मुकुल कानिटकर ने "भारत को हम भारत कैसे बनायें" विषय पर विस्तारपूर्वक अपने विचार रखते हुए भारतीयता, सांस्कृतिक अस्मिता एवं राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि भारत का वास्तविक निर्माण तभी संभव है जब युवा अपनी संस्कृति, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए कार्य करें।

सम्मेलन की एक विशेष एवं अत्यंत प्रेरणादायी पहल यह रही कि 'अभिज्ञ 3.0' के प्रत्येक सत्र का नाम एफटीएस एवं एकल अभियान की प्रेरणादायी सफलता गाथाओं पर आधारित रखा गया। विभिन्न सत्रों के नाम चांदनी, मुस्कान, कविता देवी, मुकेश सरदार, ओम प्रकाश

माननीय राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार जी के साथ एफटीएस युवा के पदाधिकारी

पासवान, रेखा देवी आदि प्रेरक व्यक्तित्वों के नाम पर रखे गए। इन सत्रों ने उपस्थित युवाओं को यह अनुभव कराया कि शिक्षा, संस्कार एवं सेवा के माध्यम से समाज के अंतिम पंक्ति तक सकारात्मक परिवर्तन पहुँचाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त सम्मेलन में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों एवं वक्ताओं के सम्मान स्वरूप एक अभिनव एवं प्रेरणादायी पहल के अंतर्गत उनके नाम से राज्य के विभिन्न एकल विद्यालय ग्रामों में पौधारोपण किया गया।

सम्मेलन का सांस्कृतिक पक्ष भी अत्यंत आकर्षक एवं ऊर्जा से परिपूर्ण रहा। 'बम भोले' के लिए प्रसिद्ध गायक वायरस जी अपनी टीम के साथ विशेष भजन जेमिंग सत्र में उपस्थित हुए। उनकी प्रस्तुतियों ने संपूर्ण वातावरण को भक्तिमय ऊर्जा से भर दिया। अवार्ड्स नाइट एवं सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में श्रीमती शगुन पाठक ने अपने मधुर गीतों से समस्त उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

इस अवसर पर एफटीएस के राष्ट्रीय नेतृत्व की गरिमामयी उपस्थिति भी रही। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रमेश कुमार महेश्वरी, कार्यकारी अध्यक्ष श्री त्रिभुवन प्रसाद काबरा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीमती शांता सरडा आदि उपस्थित रहे।

साथ ही एफटीएस युवा की गवर्निंग बोर्ड टीम में नेशनल युवा मेंटर श्री किशन कुमार केजरीवाल, राष्ट्रीय समन्वयक श्रीमती रासु जैन, पूर्वी क्षेत्र संयोजक श्री उत्सव पराशर, साउथ जोन कोऑर्डिनेटर श्री प्रितेश बुरड़, वेस्ट जोन कोऑर्डिनेटर श्रीमती अपर्णा बंसल, नॉर्थ जोन कोऑर्डिनेटर मिस संचिता गुप्ता तथा कोर कमेटी मेंबर श्री विशेष केड़िया एवं श्री विक्रम अग्रवाल की उपस्थिति ने सम्मेलन को और अधिक प्रेरणादायी बनाया।

सम्मेलन के दौरान सदस्यता अभियान, संगठन विस्तार एवं युवाओं की सक्रिय सहभागिता पर भी विशेष चर्चा हुई।

इस तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का सफल आयोजन एफटीएस युवा रांची चैप्टर द्वारा अत्यंत समर्पण, अनुशासन एवं उत्कृष्ट व्यवस्थाओं के साथ किया गया, जिसकी सभी प्रतिभागियों एवं अतिथियों ने मुक्त कंठ से सराहना की। ■

एकल युवा
वनबंधु परिषद्, रांची

Music, Devotion and Youth Leadership Unite Communities Across America for Rural Bharat
Boston | Chicago | Houston

Across the United States, Ekal Vidyalaya chapters continue to demonstrate how culture, music, devotion, and community participation can become powerful instruments of social transformation. Three remarkable fundraising events held in Boston, Chicago, and Houston brought together thousands of supporters, volunteers, artists, and youth leaders in a shared commitment to strengthening education and holistic rural development in India.

UTSAV - Bhajan Clubbing for a Purpose, Boston

The Boston Chapter introduced an innovative concept with UTSAV – Bhajan Clubbing for a Purpose, a first-of-its-kind celebration that blended spirituality, contemporary music, and philanthropy. Reimagining the traditional bhajan gathering for today's generation, the event introduced the inspiring concept of "Bhakti with Masti," encouraging participants to sing, dance, celebrate, and serve simultaneously.

The highlight of the evening was an electrifying performance by the acclaimed Rangrez Band, whose contemporary renditions of devotional music transformed the auditorium into a vibrant celebration of faith and community. Families, youth, and senior citizens participated enthusiastically, proving that devotion can be joyful, inclusive, and deeply meaningful.

Reflecting on the event, Smt. Manisha Kumar, Co-President of Ekal Boston, observed that the programme was built on the belief that devotion need not always be solemn to be spiritually enriching. Ms Arushee Divyakirti, Co-President, described UTSAV as a courageous experiment that successfully connected the community with its cultural roots through an entirely new format. Smt. Manisha Jain, Executive Director of Ekal USA, emphasized that the evening enabled participants to become partners in Ekal's mission of empowering rural and tribal communities through education, healthcare, women's empowerment, and sustainable development. The overwhelming response from attendees affirmed that UTSAV has the potential to become an annual tradition, demonstrating how music, faith, and philanthropy can together create lasting social impact.

Chicago Chapter 2026 Fundraiser

The Ekal Vidyalaya Foundation Chicago Chapter hosted a sold-out fundraising gala attended by more than 700 donors, community leaders, and well-wishers, united by the vision of expanding educational opportunities for children in rural and tribal India.

The evening commenced with the national anthems of India and the United States, followed by the traditional lighting of the ceremonial lamp. The audience was then treated to a memorable musical performance by renowned singer Milind Oak and his accomplished troupe, whose nostalgic and

energetic presentation captivated audiences across generations. During the programme, Ekal leaders highlighted the Foundation's expanding impact through its one-teacher schools and integrated village development initiatives encompassing healthcare awareness, digital literacy, women's empowerment, vocational training, and sustainable livelihoods. Inspired by the presentations, supporters came forward generously, enabling the sponsorship of more than 100 Ekal schools during the event itself.

The fundraiser reflected exceptional teamwork by the Chicago Metro and North Chapter volunteers under the leadership of Sri Kamlesh Shah, Sri Ankita Shah, Sri Rootvij Bhatt, and Ms Kinnari Sachala, supported by an energetic team of dedicated volunteers. Particularly noteworthy was the outstanding participation of Ekal's youth volunteers, whose professionalism, enthusiasm, and leadership illustrated the emergence of a new generation of committed changemakers prepared to carry Ekal's mission into the future.

Ekal Yuva Udaan Annual Fundraiser, Houston

Houston's annual fundraising gala, themed "Ekal Yuva Udaan," celebrated the growing role of young leaders while raising more than US $710,000 in support of Ekal's educational and empowerment initiatives across rural India.

The programme opened with a moving presentation of the Indian and American national anthems by the Ekal Youth Choir, symbolizing the strong cultural connection of first-generation Indo-American children with both their heritage and adopted homeland. A traditional Panchari Melam performance by Houston Kalakshetra added cultural grandeur to the evening.

One of the most inspiring moments came when Master Vibhav Aluru, now a ninth-grade student, shared his journey with Ekal. Having sponsored his first Ekal school at the age of ten using his personal savings, he reflected on how the experience transformed his understanding of service and social responsibility.

Addressing the gathering, Smt. Uma Dama, President of the Houston Chapter, reaffirmed Ekal's commitment to education, literacy, healthcare awareness, women's empowerment, and community development in rural India while also supporting local initiatives benefiting women and children in Houston.

The cultural highlight of the evening was "Raghuveera," a spectacular dance production presented by Studio Mudra, featuring 42 Indo-American youth under the direction of Guru Rashmi Sashi, which concluded with a standing ovation.

The event welcomed over 100 new families and more than 200 first-time attendees, reflecting Ekal Houston's expanding community outreach. Young volunteers including Kanishka Joshi, Anya Singh, Swara Bhatt, and Rajat Nagu shared how volunteering had strengthened their confidence, leadership, cultural identity, and lifelong commitment to community service.

Together, these three events beautifully illustrate the evolving spirit of Ekal Vidyalaya—where innovation meets tradition, youth leadership complements experienced guidance, and music, culture, and devotion become powerful catalysts for philanthropy. More importantly, they reaffirm the unwavering commitment of Ekal's global volunteer family to empowering millions of children and transforming rural and tribal communities across Bharat through education, self-reliance, and sustainable development. ■

Team Social Media, PR and Marketing
EVF USA



Ekal NH Chapter Hosts Its First Youth-Led Robotics Workshop

The New Hampshire Chapter of Ekal Vidyalaya recently celebrated a significant milestone with its first youth-led robotics workshop, bringing together STEM education, leadership, and community service in support of Ekal's mission of holistic development in rural and tribal India. Ekal continues to make an impact across 100K villages in India, ably supported by over 50 Chapters across USA.

The initiative was led by Ms Rakhi Grover, Youth Director of Ekal NH. A passionate advocate for STEM learning, Ms Rakhi helped establish Team Sea Serpents, a FIRST LEGO League team, with guidance from Team Phoenix, an FRC team. Over the past two years, the team has grown tremendously, developing technical skills, teamwork, problem-solving abilities, and leadership among its members.

Inspired by Ekal's mission and encouraged by Smt Manisha Jain, Executive Director of Ekal USA, Sri Parveen Minocha, New England Regional President, and Ms Aarti Khurana, President of Ekal NH, Ms Rakhi Grover envisioned an opportunity for the students to give back through a meaningful community outreach programme.

Sri Aaditya Grover, Captain of Team Sea Serpents and an Ekal youth volunteer, embraced the idea and worked with fellow youth leaders to design an engaging, hands-on workshop for younger students. The team took ownership of planning the event, organizing equipment, preparing lesson plans, and coordinating activities.

The workshop was led by youth volunteers Aaditya Grover, Ganak Gopinath, Jayred Rivera, Abhinav Nandakumar, Shreekar Saravanan, Lucas Menezes, and Atul Arora. Through interactive robotics activities, they introduced participants to engineering concepts, teamwork, and creative problem-solving while demonstrating confidence, collaboration, and a spirit of service.

More than a STEM event, the workshop reflected Ekal's core belief that education empowers individuals to create positive change. Just as Ekal works to transform lives through education, healthcare awareness, skill development, and village empowerment in India, this initiative empowered local youth to lead, teach, and serve their community.

The Ekal NH Chapter extends its gratitude to Ms Aarti Khurana for her leadership and support, to Smt. Manisha Jain and Sri Parveen Minocha for their encouragement and guidance, to Ms Archana Dubey for generously providing the venue, and to the First Tech Challenge Team Kube coaches Sri Gopi Govindarajan, Ms Sudha Gopinath and Ekal Supporter Sri Vipul Grover for their tremendous assistance in setting up the workshop, to Team Phoenix and FIRST NH for providing workshop materials. Special thanks also go to the parents, mentors, coaches, volunteers, and supporters who helped make the event a success.

Team Robotics supporting Ekal in advancing its vision

As Ekal NH's first youth-led initiative, the robotics workshop demonstrated the power of combining education with service. It showcased how young leaders can use their talents to inspire others while advancing Ekal's vision of empowering communities through learning and opportunity. ■

Social Media and PR Division
EVF USA

Strengthening Global Bonds for Rural Transformation

Last month, **Sri Sanu Das** and his wife, **Smt. Bijaylaxmi Das,** Maa of Purv Prabhag A (P2), were invited to visit the Head Office of the Ekal Vidyalaya Foundation of America for an interaction with its volunteers. The meeting was attended by several distinguished members of the organization, including Sri Subhas Gupta, Board Member and one of the founding members; Sri Ashok Danda, Board Member and founding member; Smt. Kalpana Fruitwala; Sri Kishore Fruitwala; Smt. Rasmita, Event Organizer at the Head Office; and other staff members.

During the interaction, Sri Subhas Gupta shared the history of the Ekal Vidyalaya Foundation of America, explaining how the organization was established in 1994 through the initiative of Ma. Shyamji and the late Sri Ashok Singhal. He highlighted that a majority of donors in the United States contribute specifically to support Ekal vidyalayas. Sri Sanu Das, in turn, explained the systems and processes adopted for monitoring Ekal vidyalayas and ensuring their effective functioning.

Following the meeting, all participants gathered for lunch at a nearby restaurant, where discussions continued on the monitoring mechanisms and the impact of Ekal's educational initiatives.

Sri and Smt. Das were also invited to attend the Annual Event of the Houston Chapter of the Ekal Vidyalaya Foundation of America. Held every year on 1 May, this flagship event serves as a major fundraising platform for the chapter. The program witnessed the participation of nearly 800 volunteers, supporters, and donors from across the region.

As a mark of respect, Sri Sanu Das was invited to participate in the ceremonial Deep Prajwalan. One of the highlights of the evening was a captivating dance-drama presentation of "Raghuveera Ramayana," performed by 42 school-going girls under the age of 18 from Ekal families in Houston. The production was choreographed and trained by the local Indian cultural institution, Mudra Dance Studio.

The two-hour performance left a deep impression on the audience and showcased the commitment of the younger generation to preserving and celebrating India's cultural heritage. Dinner was served to all attendees before the commencement of the dance-drama.

During the event, Sri Sanu Das had the opportunity to interact with several key leaders of the organization, including Smt. Uma Dahma, President of the Houston Chapter; Sri Rajeev Arulu, President of the South-West Region of the Ekal Vidyalaya Foundation of America; Sri Ramesh Sah; and other prominent members of the Ekal family.

This visit provided Sri Sanu Das valuable insights into the growth, outreach, and commitment of the Ekal movement in the United States. It also offered to him an inspiring opportunity to witness the dedication of volunteers and supporters working tirelessly to advance Ekal's mission of education and rural development. ■

Nishi Agarwal
EVFI, Prayagraj

Ekal Canada

Two Decades of Service, Growth & Dedicated Leadership

Ekal Canada began its journey in September 2006 in London, Ontario, as a registered charity and incorporated organization. Its inaugural event—a musical concert supported by Ekal USA attracted about 90 attendees and marked the beginning of a nationwide effort to support education and holistic development in rural and tribal India. Soon thereafter, the Ekal Vidyalaya Foundation of Canada was formally established.

Over the past two decades, Ekal Canada has grown from these modest beginnings into a vibrant national organization with 15 chapters across the country, including Toronto, Ottawa, Calgary, Edmonton, Vancouver, Winnipeg, and several cities in Ontario. While some chapters are more active than others, this network provides a strong foundation for continued expansion, particularly in Eastern Canada.

The organization's growth has been driven by the support of approximately 2,200 donors and well-wishers over the years. Personal relationships have remained at the heart of Ekal Canada's outreach efforts, complemented by electronic newsletters, cultural programmes, concerts, Kavi Sammelans, annual picnics, social media engagement, email campaigns, website communications, community events, and participation in Toronto's Independence Day Parade. A major milestone was the successful hosting of the Ekal National Conference and Gala in Toronto in 2018, which brought together representatives from Canada, the United States, and India, further strengthening international collaboration within the Ekal movement.




Sri Parshotam Gupta


Sri Subhash Chander

A significant part of Ekal Canada's success story is its dedicated leadership and volunteer base. Among its most committed leaders is Sri Subhash Chander, currently Director and President of Ekal Vidyalaya Foundation of Canada and a member of the Ekal Global Trust Board. Associated with Ekal since its inception in Canada in 2006 as a donor, he assumed the role of Secretary in June 2012 and served in that capacity until January 2025, when he was appointed President by the Board.

During his tenure, Ekal Canada witnessed remarkable growth. In 2012, the organization sponsored approximately 80 Ekal schools. Today, that number has grown to nearly 1,000 schools, along with support for Gramothan and Arogya initiatives in recent years. For Sri Subhash Chander, Ekal has evolved from a voluntary commitment into a lifelong passion and source of immense fulfillment.

He readily acknowledges the pivotal role played by Sri Parshotam Gupta, one of the founding members of Ekal Canada and a guiding force behind its development since 2006. In fact, it was through Gupta Ji's inspiration that Sri Subhash Chander became actively involved with Ekal. Over the years, Sri Parshotam Gupta has served as mentor, leader, and motivator for countless volunteers across Canada. He served as President of Ekal Canada from 2015 until January 2025 and currently serves as Director and Chair of the Board.

Young performers showcasing their remarkable talent

At ninety years of age, Sri Parshotam Gupta continues to be actively involved not only with Ekal Canada but also within the broader community of London, Ontario, and as a committed member of the Kiwanis Club. His unwavering dedication, energy, and service make him one of the most senior and active Ekal volunteers anywhere in the world. Volunteers across Canada consider themselves fortunate to continue working under his guidance and inspiration.

The dedication of young and senior volunteers alike has been instrumental in Ekal Canada's remarkable journey. Looking ahead, the organization aims to strengthen communications, expand fundraising initiatives, enhance chapter coordination through regular virtual meetings, and adopt a more structured organizational approach. Special emphasis will be placed on the Greater Toronto Area, home to nearly 80 percent of its target community.

From its humble beginnings in London, Ontario, to its nationwide presence today, Ekal Canada stands as a testament to the power of volunteerism, visionary leadership, and community engagement. As it enters its third decade, the organization remains firmly committed to advancing education, empowerment, healthcare, and sustainable development in rural and tribal communities across India. ■

Compiled by
Nishi Agarwal
EVFI, Prayagraj

सुविधा का छोटा प्रयास, शिक्षा की बड़ी उड़ान

महिला समिति द्वारा वनवासी विद्यार्थियों को आसन वितरण

अहमदाबाद चैप्टर एवं महिला समिति द्वारा वनवासी विद्यार्थियों को आसन वितरण

एफ.टी.एस. अहमदाबाद चैप्टर एवं महिला समिति द्वारा आयोजित वनयात्रा के दौरान एक अत्यंत संवेदनशील एवं प्रेरणादायी तथ्य सामने आया। विभिन्न एकल विद्यालयों में अध्ययनरत वनवासी बच्चे भीषण गर्मी, कड़ाके की सर्दी अथवा वर्षा ऋतु में भी जमीन पर बैठकर शिक्षा ग्रहण करने को विवश थे। उनके पास बैठने अथवा बिछाने के लिए कोई मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

इस दृश्य ने सभी सदस्यों के हृदय को स्पर्श किया। सामूहिक विचार–विमर्श के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि बच्चों को बैठने के लिए "आसन" उपलब्ध कराए जाएँ, जिससे वे अधिक सुविधा एवं एकाग्रता के साथ अध्ययन कर सकें। शिक्षा के प्रति इस संवेदनशील पहल को सभी सदस्यों का उत्साहपूर्ण सहयोग एवं समर्थन प्राप्त हुआ।

सदस्यों के उदार योगदान से हिम्मतनगर अंचल के 90 विद्यालयों में 2,700 आसनों तथा महीसागर अंचल के 252 विद्यालयों में 7,500 आसनों का वितरण किया गया। इस सेवा–कार्य पर कुल राशि 6,10,000/- की राशि व्यय हुई।

आसन वितरण का कार्य आचार्यों की मासिक बैठकों के माध्यम से व्यवस्थित रूप से सम्पन्न किया गया। साथ ही, विद्यालयों के शिक्षकों एवं आचार्यों ने इन आसनों के संरक्षण एवं सुव्यवस्थित उपयोग की जिम्मेदारी भी ग्रहण की।

आज इन विद्यालयों में बच्चे प्रसन्नता एवं आत्मविश्वास के साथ आसनों का उपयोग कर रहे हैं। यह पहल केवल बैठने की सुविधा प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा के प्रति सम्मान, विद्यार्थियों के आत्मगौरव और उनके उज्ज्वल भविष्य के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अहमदाबाद चैप्टर एवं महिला समिति का यह सेवा–प्रकल्प इस सत्य को पुनः स्थापित करता है कि समाज के सामूहिक संकल्प और संवेदनशील सहयोग से छोटे–से प्रयास भी हजारों बच्चों के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। ■

प्रचार प्रसार विभाग
अहमदाबाद

हिमाचल प्रदेश की वनयात्रा

एकल अभियान के सेवा कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प

भारत लोक शिक्षा परिषद् दक्षिणी दिल्ली चैप्टर द्वारा हिमाचल प्रदेश के संभाग – उत्तर हिमाचल, भाग चंबा में एक प्रेरणादायी एवं सफल वनयात्रा का आयोजन किया गया। इस चार दिवसीय वनयात्रा में दक्षिणी दिल्ली चैप्टर के 28 वनयात्रियों ने भाग लिया।

सभी वनयात्री दिल्ली से पठानकोट पहुंचे जहाँ पर नूरपुर अंचल समिति के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्पमालाओं के साथ आत्मीय स्वागत किया गया। पठानकोट से सभी वनयात्री चंबा के बनीखेत के लिए निकले।

एकल विद्यालय में बीएलएसपी दक्षिण दिल्ली चैप्टर के पदाधिकारी

दूसरे दिन सभी वनयात्री भरमौर पहुँचे और उन्होंने वहां एक मंदिर परिसर में आयोजित सत्संग कथा का आनंद लिया। इसके उपरांत वनयात्रियों ने मेहला गांव स्थित एकल विद्यालय को देखा। विद्यालय में ग्राम समिति द्वारा सभी अतिथियों का उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। बच्चों ने आचार्या भारती देवी के निर्देशन में सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दीं, जिन्हें उपस्थित वनयात्रियों ने खूब सराहा। वनयात्रियों द्वारा सभी बच्चों को मिठाई, पेन, कॉपी एवं कलर किट वितरित की गई।

तीसरे दिन खज्जियार एवं चंबा भ्रमण के दौरान समिति पदाधिकारियों के साथ समन्वय बैठक आयोजित की गई, जिसमें एकल अभियान के विस्तार एवं ग्रामीण विकास पर चर्चा हुई। साथ ही राजनगर एवं ग्राम काहलो स्थित एकल विद्यालयों का प्रवास कर विद्यार्थियों की गतिविधियों का अवलोकन किया गया। वनयात्रा के अंतिम दिन सभी वनयात्रियों ने डालहौजी भ्रमण किया एवं वहाँ के प्राकृतिक वातावरण का आनंद लिया। वनयात्रियों ने समिति बैठकों, कार्यकर्ताओं से संवाद एवं एकल विद्यालयों के प्रवास के माध्यम से ग्रामीण भारत की वास्तविकता को निकट से समझा तथा एकल अभियान के सेवा कार्यों को और अधिक मजबूती से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। ■

सोशल मीडिया टीम
बीएलएसपी

वनग्राम की ओर एक प्रेरक यात्रा

नासिक ग्राम समिति की 16 महिला सदस्यों का एक दल त्र्यंबकेश्वर संकुल के अंतर्गत स्थित खोरीपाड़ा वनवासी बस्ती में वनयात्रा हेतु पहुँचा। ग्रामवासियों ने वनयात्रियों का अत्यंत आत्मीयता, उत्साह एवं सम्मान के साथ स्वागत किया, जिससे सभी सदस्य अभिभूत हो उठीं।

सेवा, संस्कार और स्वावलंबन का सजीव दर्शन

वनयात्रा के दौरान एकल विद्यालय के कार्यों का अवलोकन किया गया। विद्यालय में बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की अभिनव एवं रोचक पद्धति ने सभी का मन मोह लिया। विद्यालय के आचार्य ने गणित, भाषा, हस्तकला एवं अन्य विषयों को खेल–खेल में अत्यंत सरल एवं प्रभावी ढंग से बच्चों को सिखाते हुए यह सिद्ध किया कि समर्पित शिक्षक सीमित संसाधनों में भी उत्कृष्ट परिणाम दे सकते हैं। बच्चों का आत्मविश्वास, अनुशासन एवं सीखने के प्रति उत्साह उनकी संतोषजनक प्रगति का प्रमाण था।

ग्रामवासियों से संवाद के दौरान यह जानकर विशेष संतोष एवं प्रसन्नता हुई कि एकल विद्यालय ने गाँव के सामाजिक एवं शैक्षणिक वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्रामवासियों ने बताया कि "एकल विद्यालय के कारण बच्चों की शिक्षा में निरंतर सुधार हो रहा है तथा पूरे गांव में जागरूकता और विकास की नई चेतना का संचार हुआ है।" विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में ग्रामवासियों एवं वनयात्रियों द्वारा संयुक्त रूप से वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। औषधीय एवं पर्यावरण हितैषी पौधों का रोपण कर प्रकृति संरक्षण एवं हरित भविष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। ग्रामवासियों की सक्रिय सहभागिता ने इस कार्यक्रम को और अधिक सार्थक बना दिया।

ग्राम भोजन के पश्चात वनयात्रियों ने गांव में संचालित विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों का अवलोकन किया। जल संरक्षण हेतु निर्मित सोखता गड्ढे, प्रेरणादायी दीवार लेखन, गोपालन की सुव्यवस्थित व्यवस्था तथा स्वच्छता के प्रति ग्रामवासियों की सजगता विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। प्रत्येक घर के सामने स्थापित तुलसी–वृंदावन एवं उसके आसपास सजी सुंदर रंगोलियाँ भारतीय संस्कृति, श्रद्धा और सौंदर्यबोध का जीवंत प्रतीक थीं। स्वच्छ, सुंदर, संस्कारित एवं प्रदूषण–मुक्त ग्राम वातावरण को देखकर सभी वनयात्री अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट थीं। यह वनयात्रा केवल एक भ्रमण नहीं, बल्कि सेवा, संस्कार, पर्यावरण संरक्षण और ग्राम विकास के समन्वित प्रयासों का प्रत्यक्ष अनुभव थी।

इस वनयात्रा का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह भी रहा कि कई नए सदस्य एकल विद्यालय के सेवा एवं ग्रामोत्थान कार्यों से प्रेरित होकर इस अभियान से जुड़े। यह अनुभव सभी प्रतिभागियों के लिए प्रेरणा, संतोष और समाजसेवा के प्रति नई ऊर्जा का स्रोत बन गया। ■

सोशल मीडिया टीम
नाशिक

संस्कारों से संगठन तक

प्राची की ध्येयनिष्ठ यात्रा

श्रीमती प्राची गर्ग 'एकल अभियान' में बंगाल, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ (प्रभाग) की अध्यक्षा तथा अभियान की राष्ट्रीय कार्यकारिणी (CEC) की पदेन उपाध्यक्षा हैं। प्राची एक कर्तव्यपरायण एवं ध्येयनिष्ठ कार्यकर्ता हैं।

प्राची का जन्म एक ऐसे संघ परिवार में हुआ, जहाँ पिता श्री महेश गोयल तथा माँ श्रीमती दमयंती गोयल दोनों ही स्वयं संघ के सक्रिय कार्यकर्ता रहे। अतः राष्ट्रभक्ति तथा सामाजिक चिंतन के संस्कार प्राची को विरासत में मिले हैं। प्राची ने बताया कि उनका पूरा परिवार सभी भाई–बहन युवावस्था से ही संघ में किसी न किसी दायित्व में रहकर अपनी सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। स्वाभाविक है कि शिक्षा के साथ–साथ संगठन कार्य करना परिवार का सहज संस्कार रहा है।

प्राची की माताजी स्वयं राष्ट्र सेविका समिति की सह–प्रांत कार्यवाहिका थीं तथा बाद में

श्रीमती प्राची गर्ग

संगठन की योजना से ही **गाजियाबाद की महापौर** भी रहीं। पिता श्री महेश गोयल प्रारंभ में संघ के प्रचारक थे। प्राची के दादाजी श्री बनवारी लाल गाजियाबाद महानगर के संघचालक थे। अतः प्राची का बचपन व युवावस्था घर और बाहर, दोनों जगह 'संघमय' वातावरण में बीता। घर में प्रायः संघ के अधिकारियों तथा प्रचारकों का आना–जाना लगा रहता था। उनके संसर्ग में देश, धर्म व समाज की चर्चा तथा चिंतन होना स्वाभाविक ही था। इन सबका परिणाम यह हुआ कि प्राची का अपना व्यक्तित्व भी देशभक्ति की भावनाओं से प्रेरित रहता है और देश के लिए कुछ करना है, इसकी स्वयंभू प्रेरणा व इच्छाशक्ति हमेशा बनी रहती है।

प्राची ने हिन्दी साहित्य में स्नातक, शास्त्रीय संगीत में तथा नृत्य में प्रभाकर तथा विशारद की योग्यता प्राप्त की। साथ ही, योग शिक्षिका का अध्ययन किया और राष्ट्र सेविका समिति का श्प्रबोधश प्रशिक्षण भी प्राप्त किया।

सौभाग्य से कहें या योजनाबद्ध तरीके से, प्राची का विवाह छत्तीसगढ़ में श्री मनीष गर्ग के साथ हुआ। प्राची के ससुराल में भी पिता श्री मदन लाल गर्ग बाल स्वयंसेवक थे। छत्तीसगढ़ के वन विभाग में कार्य करते हुए वे जहाँ–जहाँ जाते, वहाँ संघ की कोई न कोई आधारशिला स्थापित कर देते थे। उनका ही प्रोत्साहन था कि प्राची को महिला विभाग का संगठन खड़ा करना चाहिए, विशेषकर वनवासी समाज के मध्य इसकी अति

आवश्यकता है। इस कार्य की प्रेरणा उन्हें इसी माध्यम से मिली।

संयोग से, एकल अभियान के संस्थापक–मार्गदर्शक मा. श्याम गुप्त का घर पर प्रवास हुआ। उसके बाद तो प्राची को घर से भी संगठन कार्य हेतु अधिक समय देने की अनुमति मिल गई। प्राची ने पहली बार राष्ट्र सेविका समिति का गठन अपने नगर में किया। एकल अभियान में प्राची का योगदान विभिन्न प्रकार के दायित्वों में सफलतापूर्वक रहा। प्राची ने स्वयं बताया कि मा. श्याम गुप्त की पुस्तक 'क्रान्ति राम की' पढ़ने के बाद वे अंतःप्रेरणा से ही 'एकल' अर्थात् 'राम जी का कार्य' के साथ पूरी तरह संलग्न हो गईं। उन्हें लगने लगा कि उनका जन्म ही इस कार्य हेतु हुआ है।

अधिकारियों की सलाह पर प्राची को सतत प्रेरणा और स्नेह–सिंचित वात्सल्य ने ऐसा जकड़कर बाँध लिया कि वह दिन–रात कार्य के चिंतन में लगी रहती हैं। प्रारंभ से ही प्राची ग्राम संगठन के महिला विभाग में अंचल, भाग, संभाग; सभी स्तरों पर प्रवास करना, बहनों को प्रेरणा देना, उन्हें संगठित कर समितियों का निर्माण करना जैसे सतत प्रयास सफलतापूर्वक करती आ रही हैं। महिला विभाग के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए वे वर्तमान में प्रभाग स्तर के अध्यक्षा का दायित्व संभाल रही हैं।

प्राची को संगठन शास्त्र की गुणवत्ता प्राप्त है। विषय का व्यापक ज्ञान और उसका प्रशिक्षण देने में प्राची को कुशलता हासिल है। प्राची उन बहनों के लिए एक आदर्श हैं जो घर–गृहस्थी और बच्चों के दायित्व का निर्वहन करते हुए भी पूरे निश्चय व लगन के साथ देश व समाज का कार्य कर सकती हैं।

संगठन की कार्यशाला हो या बैठक, प्राची का अनुशासन के प्रति बहुत आग्रह रहता है। यह सत्य है कि प्राची का जन्म देश व समाज के कल्याण कार्य हेतु ही हुआ है। भगवद्–प्रेरणा व आशीर्वाद के साथ प्राची दीर्घायु अवस्था तक संगठन कार्य करती रहें, यही प्रभु श्री राम के चरणों में प्रार्थना है। ■

शुभेच्छा के साथ
मंजु दीदी

श्री थलक्कल चंथु ने पझास्सी राजा के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वनवासी समुदायों पर किए जा रहे शोषण के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया। कंपनी जनता से भारी कर अनाज और अन्य वस्तुओं के रूप में सीधे वसूलती थी। उसका मुख्य उद्देश्य मालाबार क्षेत्र के काली मिर्च व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना था। चंथु के व्यक्तिगत जीवन, जन्मतिथि और परिवार के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है।

थलक्कल चंथु

मालाबार में अंग्रेजों के विरुद्ध वनवासी प्रतिरोध का सशक्त चेहरा

श्री थलक्कल चंथु, जिन्हें चंदु भी कहा जाता है, उन्नीसवीं शताब्दी के प्रसिद्ध कुरिचिया वनवासी योद्धा, कुशल धनुर्धर तथा केरल वर्मा पझास्सी राजा की सेना के प्रधान सेनापति थे। वे वायनाड क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध वनवासी प्रतिरोध के प्रमुख प्रतीक माने जाते हैं। वर्ष 1802 में पनमराम किले पर हुए ऐतिहासिक आक्रमण में उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों कैप्टन डिकिन्सन और लेफ्टिनेंट मैक्सवेल को मार गिराया था। अंततः अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर वर्ष 1805 में फाँसी दे दी।

अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दक्षिण भारत के अधिकांश राज्य मैसूर के शासक हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान के बढ़ते प्रभाव और सैन्य दबाव का सामना कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन राज्यों को टीपू के विरुद्ध हथियार और गोला–बारूद उपलब्ध कराए। इसके बदले राज्यों से भारी कर वसूले गए, जिन्हें कंपनी के अधिकारी सीधे जनता से अनाज और उपज के रूप में लेते थे। मालाबार क्षेत्र के काली मिर्च व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना कंपनी की प्रमुख नीति थी, जिसमें वह काफी हद तक सफल भी रही।

ईस्ट इंडिया कंपनी की रणनीति स्थानीय क्षेत्रों में अस्थिरता फैलाकर उन्हें अपने अधीन लाने की थी। किन्तु दक्षिण भारत के अनेक शासकों, विशेषकर तमिलनाडु के पलयक्कारों और स्थानीय सरदारों ने कंपनी की अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने वर्षों तक अंग्रेजों के विरुद्ध साहसपूर्वक संघर्ष किया। कोट्टायम राज्य के राजा वीर केरल वर्मा पझास्सी ने इन योद्धाओं का समर्थन किया और मालाबार क्षेत्र में प्रतिरोध आंदोलन का नेतृत्व संभाला।

ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा गरीब जनता के शोषण के विरुद्ध पहला संगठित प्रतिरोध वर्ष 1800 में एडाचेना कुंकन के नेतृत्व में प्रारम्भ हुआ। जनता के लगातार विरोध को कंपनी ने पूरी तरह अनदेखा कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप अक्टूबर 11, 1802 को पनमराम किले पर आक्रमण किया गया। यह किला उस गोदाम के रूप में उपयोग किया जाता था, जहाँ लोगों से कर के रूप में वसूला गया अनाज संग्रहित किया जाता था।

श्री थलक्कल चंथु कुरिचिया समुदाय से संबंध रखते थे, जो वायनाड के घने जंगलों में रहने वाले साहसी योद्धा माने जाते थे

और अपनी अद्भुत तीरंदाजी के लिए प्रसिद्ध थे। चंथु ने अपने वनवासी साथियों के साथ एडाचेना कुंकन की सेना में शामिल होकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। उनकी वीरता, नेतृत्व क्षमता और युद्ध कौशल से प्रभावित होकर एडाचेना कुंकन ने उन्हें आगे चलकर सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त किया। पझास्सी राजा तथा उनके अन्य सेनानायक चंथु को अपने सबसे सक्षम और भरोसेमंद युद्ध नेता के रूप में देखते थे।

वायनाड के किसानों की कृषि उपज पर लगाए गए भारी करों ने जनता में व्यापक असंतोष पैदा कर दिया था। एक अवसर पर कंपनी का एक कर्मचारी कर के रूप में एक कुरिचिया किसान से धान मांगने पहुँचा, जिसे एडाचेना कुंकन ने मार डाला। इस घटना के बाद पूरा कुरिचिया समुदाय पझास्सी राजा की ओर से अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में एकजुट होकर खड़ा हो गया।

अक्टूबर 11,1802 को एडाचेना कुंकन और श्री थलक्कल चंथु के नेतृत्व में लगभग 175 कुरिचिया धनुर्धर वनवासी योद्धाओं ने पनमराम किले पर धावा बोल दिया। कैप्टन डिकिन्सन और लेफ्टिनेंट मैक्सवेल के नेतृत्व वाली चौथी बॉम्बे इन्फैंट्री की पूरी टुकड़ी, जिसमें लगभग 70 सैनिक थे, इस संघर्ष में मार गिराई गई। अंग्रेजों की पिस्तौलें और संगीनें वनवासी योद्धाओं के तीरों की वर्षा के सामने टिक नहीं सकीं। मातृभूमि की रक्षा करते हुए पाँच कुरिचिया वीरों ने भी अपने प्राण न्यौछावर किए। इस युद्ध में बड़ी मात्रा में हथियार और गोला–बारूद भी जब्त किए गए।

इसके बाद कंपनी और कुरिचिया तथा कुरुमा समुदायों के योद्धाओं के बीच संघर्ष और अधिक तीव्र हो गया। गुरिल्ला युद्धकला में उनकी अद्वितीय दक्षता ने अंग्रेज सैनिकों को असहाय बना दिया। चंथु और उनके साथियों द्वारा तैयार किए गए सहयोग तंत्र को अंग्रेज तोड़ नहीं सके। उस समय पझास्सी राजा वायनाड के घने जंगलों से निर्वासन में रहकर अपना शासन चला रहे थे। कुरिचिया योद्धाओं ने दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों को युद्धभूमि बनाया तथा पुलपल्ली स्थित सीता देवी मंदिर को अपना प्रमुख केंद्र बनाया। उन्होंने वायनाड के पहाड़ी मार्गों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया।

जनवरी 13,1803 को कंपनी द्वारा घोषित मार्शल लॉ भी इस क्षेत्र में प्रभावी सिद्ध नहीं हुआ। इसके विपरीत, बड़ी संख्या में लोग अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में शामिल होने लगे।

पझास्सी राजा और उनकी सेना ने आर्थर वेलेजली को भी पराजित किया, जो आगे चलकर ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जिसने एंग्लो–मराठा युद्धों तथा वाटरलू के युद्ध में कई विजय प्राप्त की थीं। इतिहास में यह संघर्ष "कोट्टायम युद्ध" के नाम से दर्ज है, जो भारत के सैन्य इतिहास की उन महान लेकिन अपेक्षाकृत कम चर्चित विजयों में से एक माना जाता है।

अंततः अंग्रेजों ने अपनी पुरानी नीति–विश्वासघात का सहारा लिया। धन और भूमि के लालच में आए कुछ स्थानीय लोगों की सहायता से श्री थलक्कल चंथु को पकड़ लिया गया। जिस पनमराम किले ने कभी उनकी अद्वितीय वीरता देखी थी, वहीं नवंबर 15, 1805 को उन्हें फाँसी दे दी गई, जबकि पन्नियिल में चारों ओर से घिर जाने पर एडाचेना कुंकन ने आत्मबलिदान कर लिया।

पर हमें श्री थलक्कल चंथु तथा कुरिचिया और कुरुमा जनजातियों के उन वीर बलिदानों को हमेशा स्मरण करना चाहिए, जिन्होंने अपनी पारंपरिक तीरंदाजी और अदम्य साहस के बल पर अंग्रेजों का सामना किया और मातृभूमि के लिए अपने प्राण अर्पित कर दिए।

श्री थलक्कल चंथु की स्मृति को सम्मान देने के लिए केरल सरकार ने सितंबर 22, 2012 को काबिनी नदी के तट पर पनमराम किले के निकट एक स्मारक स्थापित किया। इस स्मारक में चंथु और उनके साथियों द्वारा उपयोग किए गए विभिन्न हथियारों, कुरिचिया धनुर्धरों की पारंपरिक युद्ध शैली तथा जनजातीय कृषि उपकरणों को प्रदर्शित किया गया है। ■

स्रोत
विकिपीडिया एवं इंटरनेट

Step into Jagriti Dham to Experience

ELEGANCE, COMFORT & CARE

JAGRITI DHAM | Initiative of infinity

Luxury Eldercare Living in Kolkata

30 minutes from IIM Calcutta, Joka
inside Merlin IBIZA Campus, Diamond Harbour Road

EXCLUSIVE OFFER
100% REFUNDABLE DEPOSIT

State-of-the-art Ayurveda Centre -Jivagram, Now at Jagriti Dham

COMFORTABLE ROOMS
Fully furnished, well-lit air-conditioned rooms with attached balconies, ensuite bathrooms, pantry & emergency bells



HOLISTIC LIVING
Yoga room, library, gym, AV theatre, games room, card room, conference hall, indoor and outdoor dining areas, green lawn

HEALTH IN TOTALITY
Medical support, emergency assistance, health check-up by resident doctor, in-house nurse, care manager, tailor-made care plan & nutritious meals

AYURVEDIC CENTRE
On-site Ayurvedic and Wellness Centre, providing holistic healing and rejuvenation

COMMITTED SERVICE
Housekeeping, laundry service, free WiFi, 24X7 manned security, CCTV surveillance in common areas, and receptionist

ENGAGEMENT
Vibrant calendar of events and engaging activities to foster social interaction and personal enrichment

"Our Bank - Punjab National Bank"

For Booking or Site Visit: **+91 7596038215** | **www.jagritidham.com**



RNI Regd. No. DEL BIL/2010/32946